



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022020-215998
CG-DL-E-07022020-215998

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]
No. 507]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2020/माघ 15, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2020/MAGHA 15, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2020

का.आ. 545(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में नया प्रस्तावित के कि.मी.9.38 से कि.मी. 62.35 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) कुरुद) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं सक्षम प्राधिकारी भूअर्जन कुरुद को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में नया प्रस्तावित (रायपुर-विशाखापट्टनम) के कि.मी. 9.38 से कि.मी. 62.35 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) कुरुद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़		जिले का नाम: धमतरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कुरुद					
गांव का नाम: बानगर					
1	263	सरकारी	पानी के निचे	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
2	269	निजी	सिंचित दो फसली	0.1550000(हेक्टेयर)	0.1550000
3	271	निजी	सिंचित दो फसली	0.5200000(हेक्टेयर)	0.5200000
4	274	निजी	सिंचित दो फसली	0.4300000(हेक्टेयर)	0.4300000
5	275	निजी	सिंचित दो फसली	0.0707000(हेक्टेयर)	0.0707000
6	276	सरकारी	घास (कब्रस्तान)	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
7	277	निजी	सिंचित दो फसली	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000
8	278	निजी	सिंचित दो फसली	0.0863000(हेक्टेयर)	0.0863000
9	285	निजी	सिंचित दो फसली	0.0537000(हेक्टेयर)	0.0537000
10	287	निजी	सिंचित दो फसली	0.0891000(हेक्टेयर)	0.0891000
11	288	निजी	सिंचित दो फसली	0.1929000(हेक्टेयर)	0.1929000
12	290	सरकारी	घास (चराई)	0.6500000(हेक्टेयर)	0.6500000
13	291	निजी	सिंचित दो फसली	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
14	292	निजी	सिंचित दो फसली	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
15	294	सरकारी	रास्ता	0.1033000(हेक्टेयर)	0.1033000
16	295	सरकारी	घास (चराई)	0.1328000(हेक्टेयर)	0.1328000
17	296	निजी	सिंचित दो फसली	0.2740000(हेक्टेयर)	0.2740000
18	297	निजी	सिंचित दो फसली	0.1206000(हेक्टेयर)	0.1206000

19	298	निजी	सिंचित दो फसली	0.0220000(हेक्टेयर)	0.0220000
20	299	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
21	311 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1397000(हेक्टेयर)	0.1397000
22	312	निजी	सिंचित एक फसली	0.0340000(हेक्टेयर)	0.0340000
23	313	निजी	सिंचित दो फसली	0.3500000(हेक्टेयर)	0.3500000
24	314 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
25	314 / 3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0878000(हेक्टेयर)	0.0878000
26	593 / 1	निजी	सिंचित एक फसली	0.1740000(हेक्टेयर)	0.1740000
27	593 / 2	निजी	सिंचित एक फसली	0.0123000(हेक्टेयर)	0.0123000
28	593 / 3	निजी	सिंचित एक फसली	0.0369000(हेक्टेयर)	0.0369000
29	593 / 4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
30	594	निजी	सिंचित एक फसली	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
31	595	निजी	सिंचित एक फसली	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
32	596	निजी	सिंचित एक फसली	0.2051000(हेक्टेयर)	0.2051000
33	597	निजी	सिंचित एक फसली	0.0452000(हेक्टेयर)	0.0452000
34	598	निजी	सिंचित एक फसली	0.0107000(हेक्टेयर)	0.0107000
35	604 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1526000(हेक्टेयर)	0.1526000
36	605	निजी	सिंचित दो फसली	0.4949000(हेक्टेयर)	0.4949000
37	606	निजी	सिंचित दो फसली	0.6782000(हेक्टेयर)	0.6782000
38	608 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1147000(हेक्टेयर)	0.1147000
39	608 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
40	612	सरकारी	पानी के निचे	0.1227000(हेक्टेयर)	0.1227000
41	740	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
42	741	निजी	सिंचित दो फसली	0.2087000(हेक्टेयर)	0.2087000
43	742	निजी	सिंचित दो फसली	0.5967000(हेक्टेयर)	0.5967000
44	743	निजी	सिंचित दो फसली	0.2885000(हेक्टेयर)	0.2885000
45	744	निजी	सिंचित दो फसली	0.0543000(हेक्टेयर)	0.0543000
46	750 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0127000(हेक्टेयर)	0.0127000
47	751	निजी	सिंचित दो फसली	0.5400000(हेक्टेयर)	0.5400000
48	752	निजी	सिंचित एक फसली	0.1051000(हेक्टेयर)	0.1051000

49	753	निजी	सिंचित दो फसली	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
50	754	निजी	सिंचित दो फसली	0.2100000(हेक्टेयर)	0.2100000
51	755	निजी	सिंचित दो फसली	0.3826000(हेक्टेयर)	0.3826000
52	757	निजी	सिंचित एक फसली	0.2200000(हेक्टेयर)	0.2200000
53	759	निजी	सिंचित दो फसली	0.0874000(हेक्टेयर)	0.0874000
54	760	निजी	सिंचित दो फसली	0.5992000(हेक्टेयर)	0.5992000
55	761 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0243000(हेक्टेयर)	0.0243000
56	762 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0396000(हेक्टेयर)	0.0396000
57	781	निजी	सिंचित दो फसली	0.4997000(हेक्टेयर)	0.4997000
58	784	निजी	सिंचित दो फसली	0.6000000(हेक्टेयर)	0.6000000
गांव का नाम: भरदा					
1	299	सरकारी	पानी के नीचे	0.0531000(हेक्टेयर)	0.0531000
2	302	सरकारी	कृषि भूमि (सेवा भूमि)	1.4000000(हेक्टेयर)	1.4000000
3	303	सरकारी	घास	2.8000000(हेक्टेयर)	2.8000000
गांव का नाम: भरदा					
1	1 / 2	निजी	सिंचित	0.2584000(हेक्टेयर)	0.2584000
2	10	निजी	कृषि सिंचित	0.5271000(हेक्टेयर)	0.5271000
3	11	निजी	सिंचित	0.5310000(हेक्टेयर)	0.5310000
4	17	निजी	सिंचित	0.0727000(हेक्टेयर)	0.0727000
5	2 / 1	निजी	सिंचित	0.1850000(हेक्टेयर)	0.1850000
6	2 / 2	निजी	सिंचित	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
7	291	सरकारी	चराई	0.2030000(हेक्टेयर)	0.2030000
8	292	सरकारी	घास	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
9	293	सरकारी	चराई	0.1716000(हेक्टेयर)	0.1716000
10	296	निजी	सिंचित	0.0570000(हेक्टेयर)	0.0570000
11	300	निजी	सिंचित	0.2461000(हेक्टेयर)	0.2461000
12	301	निजी	सिंचित	0.1346000(हेक्टेयर)	0.1346000
13	302	निजी	सिंचित	0.1944000(हेक्टेयर)	0.1944000
14	303	निजी	सिंचित	0.1409000(हेक्टेयर)	0.1409000
15	304	निजी	सिंचित	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000

16	305	निजी	सिंचित	0.1202000(हेक्टेयर)	0.1202000
17	310 /2	निजी	सिंचित	0.4087000(हेक्टेयर)	0.4087000
18	310 /3	निजी	सिंचित	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
19	311 /1	निजी	सिंचित	0.2300000(हेक्टेयर)	0.2300000
20	312	निजी	सिंचित	0.7700000(हेक्टेयर)	0.7700000
21	40	सरकारी	घास	0.2353000(हेक्टेयर)	0.2353000
22	42 / 6	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
23	42 /1	निजी	कृषि भूमि	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000
24	42 /2	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
25	42 /3	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
26	42 /4	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
27	42 /5	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
28	42 /7	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
29	42 /8	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
30	42 /9	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
31	42/10	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
32	47	निजी	सिंचित	0.0416000(हेक्टेयर)	0.0416000
33	48 /10	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
34	48 /2	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
35	48 /3	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
36	48 /4	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
37	48 /5	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
38	48 /6	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
39	48 /8	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
40	48 /9	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
41	48/7	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
42	5 /10	निजी	कृषिभूमि	0.0067000(हेक्टेयर)	0.0067000
43	5 /11	निजी	कृषि भूमि	0.0082000(हेक्टेयर)	0.0082000
44	5 /13	निजी	कृषि भूमि	0.0097000(हेक्टेयर)	0.0097000
45	5 /14	निजी	कृषि भूमि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000

46	5 /2	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
47	5 /3	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
48	5 /4	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
49	5 /5	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
50	5 /6	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
51	5 /7	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
52	5 /8	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
53	5 /9	निजी	कृषि भूमि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
54	5/12	निजी	कृषि भूमि	0.0105000(हेक्टेयर)	0.0105000
55	50 /1	निजी	सिंचित	0.0706000(हेक्टेयर)	0.0706000
56	54	निजी	सिंचित	0.1860000(हेक्टेयर)	0.1860000
57	55	निजी	सिंचित	0.5600000(हेक्टेयर)	0.5600000
58	56	सरकारी	नाला	0.2102000(हेक्टेयर)	0.2102000
59	57	निजी	सिंचित	0.1212000(हेक्टेयर)	0.1212000
60	6 /2	निजी	सिंचित	0.0798000(हेक्टेयर)	0.0798000
61	6 /3	निजी	सिंचित	0.3147000(हेक्टेयर)	0.3147000
62	61	सरकारी	घास	0.1120000(हेक्टेयर)	0.1120000
63	8	निजी	सिंचित	0.2989000(हेक्टेयर)	0.2989000
64	9	निजी	सिंचित	0.0099000(हेक्टेयर)	0.0099000
65	94 /1	सरकारी	घास	1.2800000(हेक्टेयर)	1.2800000
गांव का नाम: चिबरी					
1	1086 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
2	1222	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0862000(हेक्टेयर)	0.0862000
3	1086 / 1	सरकारी	चराई	0.2433000(हेक्टेयर)	0.2433000
4	1086 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0063000(हेक्टेयर)	0.0063000
5	1165	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1445000(हेक्टेयर)	0.1445000
6	1166	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
7	1167	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000

8	1168	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.1404000(हेक्टेयर)	0.1404000
9	1169	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0733000(हेक्टेयर)	0.0733000
10	1170	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.5700000(हेक्टेयर)	0.5700000
11	1171	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0309000(हेक्टेयर)	0.0309000
12	1175	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0381000(हेक्टेयर)	0.0381000
13	1177	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1309000(हेक्टेयर)	0.1309000
14	1178	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
15	1179	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1285000(हेक्टेयर)	0.1285000
16	1194	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2276000(हेक्टेयर)	0.2276000
17	1206	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2111000(हेक्टेयर)	0.2111000
18	1207 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0378000(हेक्टेयर)	0.0378000
19	1209	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2338000(हेक्टेयर)	0.2338000
20	1210 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.1941000(हेक्टेयर)	0.1941000
21	1211	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.3079000(हेक्टेयर)	0.3079000
22	1212	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.4900000(हेक्टेयर)	0.4900000
23	1213 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0212000(हेक्टेयर)	0.0212000
24	1213 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0582000(हेक्टेयर)	0.0582000
25	1214 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1260000(हेक्टेयर)	0.1260000
26	1214 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.2234000(हेक्टेयर)	0.2234000
27	1215	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.4845000(हेक्टेयर)	0.4845000
28	1216	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
29	1217	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
30	1218	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0192000(हेक्टेयर)	0.0192000

31	1219	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
32	1223	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
33	1224	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1403000(हेक्टेयर)	0.1403000
34	1225	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
35	1226	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0834000(हेक्टेयर)	0.0834000
36	1227	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0239000(हेक्टेयर)	0.0239000
37	1251	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
38	130 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0280000(हेक्टेयर)	0.0280000
39	130 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0467000(हेक्टेयर)	0.0467000
40	130 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0450000(हेक्टेयर)	0.0450000
41	130 / 4	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
42	1304	सरकारी	नाला	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
43	1305	सरकारी	चराई	0.1434000(हेक्टेयर)	0.1434000
44	1306	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1961000(हेक्टेयर)	0.1961000
45	1308	सरकारी	तालाब	0.0819000(हेक्टेयर)	0.0819000
46	131	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0378000(हेक्टेयर)	0.0378000
47	1319	सरकारी	नाला	0.0178000(हेक्टेयर)	0.0178000
48	132	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
49	133	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0321000(हेक्टेयर)	0.0321000
50	152	सरकारी	नहर	0.1004000(हेक्टेयर)	0.1004000
51	153	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0573000(हेक्टेयर)	0.0573000
52	154	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0537000(हेक्टेयर)	0.0537000
53	155	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000

54	156	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
55	157	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
56	840	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1959000(हेक्टेयर)	0.1959000
57	841	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2796000(हेक्टेयर)	0.2796000
58	842 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
59	842 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1850000(हेक्टेयर)	0.1850000
60	842 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
61	842 / 4	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
62	842 / 5	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
63	842 / 6	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
64	842 / 7	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
65	856 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2734000(हेक्टेयर)	0.2734000
66	856 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1706000(हेक्टेयर)	0.1706000
67	856 / 5	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2317000(हेक्टेयर)	0.2317000
68	856 / 6	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2534000(हेक्टेयर)	0.2534000
69	857 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1248000(हेक्टेयर)	0.1248000
70	857 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2301000(हेक्टेयर)	0.2301000
71	867	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0232000(हेक्टेयर)	0.0232000
72	868	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
73	869	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.5174000(हेक्टेयर)	0.5174000
74	872	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1764000(हेक्टेयर)	0.1764000
75	873	निजी	धनहा सिंचित दो	0.2912000(हेक्टेयर)	0.2912000

			फसलीय		
76	874	सरकारी	चराई	0.2505000(हेक्टेयर)	0.2505000
77	875	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
78	876 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
79	876 / 4	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
80	876 / 6	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
81	876 / 7	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0360000(हेक्टेयर)	0.0360000
82	876 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
83	876 / 5	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
84	876/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
85	877	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0420000(हेक्टेयर)	0.0420000
86	878	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
87	882	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0812000(हेक्टेयर)	0.0812000
88	883	सरकारी	चराई	0.0950000(हेक्टेयर)	0.0950000
89	892	सरकारी	चराई	0.0421000(हेक्टेयर)	0.0421000
90	901	सरकारी	सड़क	0.1872000(हेक्टेयर)	0.1872000
91	903	सरकारी	सड़क	0.1358000(हेक्टेयर)	0.1358000
92	939	सरकारी	चराई	0.1267000(हेक्टेयर)	0.1267000
93	975 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	1.1700000(हेक्टेयर)	1.1700000
94	975 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.5285000(हेक्टेयर)	0.5285000
95	976	सरकारी	नाला	0.1728000(हेक्टेयर)	0.1728000
96	981	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
गांव का नाम: डेंडा					
1	1	सरकारी	नाला	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
2	149 / 1	निजी	सिंचित	0.0220000(हेक्टेयर)	0.0220000
3	151 / 1	निजी	सिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000

4	152	निजी	सिंचित	0.1180000(हेक्टेयर)	0.1180000
5	162 / 1	निजी	सिंचित	0.1170000(हेक्टेयर)	0.1170000
6	163	निजी	सिंचित	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
7	164	निजी	सिंचित	0.0480000(हेक्टेयर)	0.0480000
8	165	निजी	सिंचित	0.0210000(हेक्टेयर)	0.0210000
9	172	निजी	सिंचित	0.2750000(हेक्टेयर)	0.2750000
10	173	निजी	सिंचित	0.1110000(हेक्टेयर)	0.1110000
11	174	निजी	सिंचित	0.5080000(हेक्टेयर)	0.5080000
12	175	निजी	सिंचित	0.3270000(हेक्टेयर)	0.3270000
13	176	निजी	सिंचित	0.1370000(हेक्टेयर)	0.1370000
14	177	निजी	सिंचित	0.0090000(हेक्टेयर)	0.0090000
15	178	निजी	सिंचित	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
16	183	निजी	सिंचित	0.0420000(हेक्टेयर)	0.0420000
17	186 / 2	निजी	सिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
18	188	निजी	सिंचित	0.2100000(हेक्टेयर)	0.2100000
19	191	निजी	सिंचित	0.0860000(हेक्टेयर)	0.0860000
20	192	निजी	सिंचित	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
21	193 / 1	निजी	सिंचित	0.1770000(हेक्टेयर)	0.1770000
22	193 / 2	निजी	सिंचित	0.2180000(हेक्टेयर)	0.2180000
23	193 / 3	निजी	सिंचित	0.1240000(हेक्टेयर)	0.1240000
24	198	निजी	सिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
25	199	निजी	सिंचित	0.0360000(हेक्टेयर)	0.0360000
26	201	निजी	सिंचित	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
27	202	निजी	सिंचित	0.0420000(हेक्टेयर)	0.0420000
28	203 / 1	निजी	सिंचित	0.1010000(हेक्टेयर)	0.1010000
29	203 / 2	निजी	सिंचित	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
30	203 / 3	निजी	सिंचित	0.3800000(हेक्टेयर)	0.3800000
31	204 / 1	निजी	सिंचित	0.5550000(हेक्टेयर)	0.5550000
32	204 / 2	निजी	सिंचित	0.3680000(हेक्टेयर)	0.3680000
33	206	निजी	सिंचित	0.0140000(हेक्टेयर)	0.0140000

34	218	निजी	सिंचित	0.0980000(हेक्टेयर)	0.0980000
35	219 / 2	निजी	सिंचित	0.2430000(हेक्टेयर)	0.2430000
36	220 / 1	निजी	सिंचित	0.1320000(हेक्टेयर)	0.1320000
37	220 / 2	निजी	सिंचित	0.3540000(हेक्टेयर)	0.3540000
38	221	निजी	सिंचित	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
39	222	निजी	सिंचित	0.2830000(हेक्टेयर)	0.2830000
40	223	सरकारी	सड़क	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
41	329	निजी	सिंचित	0.1280000(हेक्टेयर)	0.1280000
42	331	निजी	सिंचित	0.3890000(हेक्टेयर)	0.3890000
43	332	निजी	सिंचित	0.2370000(हेक्टेयर)	0.2370000
44	333	निजी	सिंचित	0.1590000(हेक्टेयर)	0.1590000
45	334	निजी	सिंचित	0.0690000(हेक्टेयर)	0.0690000
46	336	निजी	सिंचित	0.0230000(हेक्टेयर)	0.0230000
47	337	निजी	सिंचित	0.0190000(हेक्टेयर)	0.0190000
48	342	सरकारी	घास	0.0260000(हेक्टेयर)	0.0260000
गांव का नाम: फुसेरा					
1	490	सरकारी	नाला गैर कृषि	0.0610000(हेक्टेयर)	0.0610000
2	491	निजी	सिंचित	1.3500000(हेक्टेयर)	1.3500000
3	520	सरकारी	सिंचित	0.4300000(हेक्टेयर)	0.4300000
4	521	निजी	सिंचित	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
5	522	निजी	सिंचित	0.2900000(हेक्टेयर)	0.2900000
6	523	निजी	सिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
7	524	निजी	सिंचित	0.1430000(हेक्टेयर)	0.1430000
8	525	निजी	सिंचित	0.5040000(हेक्टेयर)	0.5040000
9	526	निजी	सिंचित	0.1890000(हेक्टेयर)	0.1890000
10	527	निजी	सिंचित	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
11	553	सरकारी	पानी के नीचे गैर कृषि	0.1140000(हेक्टेयर)	0.1140000
12	70	निजी	सिंचित	0.0740000(हेक्टेयर)	0.0740000
13	71	निजी	सिंचित	0.1960000(हेक्टेयर)	0.1960000
गांव का नाम: जोरातराई					

1	194 /1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0229000(हेक्टेयर)	0.0229000
2	195 /1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0191000(हेक्टेयर)	0.0191000
3	195 /2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
4	195 /3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0644000(हेक्टेयर)	0.0644000
5	197	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.9988000(हेक्टेयर)	0.9988000
6	223 /3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0376000(हेक्टेयर)	0.0376000
7	224 /1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.3150000(हेक्टेयर)	0.3150000
8	224 /2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0168000(हेक्टेयर)	0.0168000
9	224 /3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.3469000(हेक्टेयर)	0.3469000
10	225 /1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0344000(हेक्टेयर)	0.0344000
11	228 /1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1161000(हेक्टेयर)	0.1161000
12	228 /2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
13	229	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0061000(हेक्टेयर)	0.0061000
14	230	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1234000(हेक्टेयर)	0.1234000
15	231	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
16	232	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1807000(हेक्टेयर)	0.1807000
17	234	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0347000(हेक्टेयर)	0.0347000
18	764	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0478000(हेक्टेयर)	0.0478000
19	766 /1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1050000(हेक्टेयर)	0.1050000
20	766 /2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
21	766 /3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0060000(हेक्टेयर)	0.0060000
22	766 /5	निजी	धनहा सिंचित दो	0.1130000(हेक्टेयर)	0.1130000

			फसलीय		
23	766 /6	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0363000(हेक्टेयर)	0.0363000
24	767	सरकारी	सड़क (रास्ता)	0.0099000(हेक्टेयर)	0.0099000
25	768 /1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0450000(हेक्टेयर)	0.0450000
26	768 /2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0313000(हेक्टेयर)	0.0313000
27	768 /3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
28	768 /4	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
29	769	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2762000(हेक्टेयर)	0.2762000
30	770	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2223000(हेक्टेयर)	0.2223000
31	771	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2743000(हेक्टेयर)	0.2743000
32	772	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0084000(हेक्टेयर)	0.0084000
33	773	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0743000(हेक्टेयर)	0.0743000
34	774	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1784000(हेक्टेयर)	0.1784000
35	775	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
36	776	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2100000(हेक्टेयर)	0.2100000
37	777	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0064000(हेक्टेयर)	0.0064000
38	778	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
39	794	सरकारी	सड़क	0.2545000(हेक्टेयर)	0.2545000
40	803	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.7890000(हेक्टेयर)	0.7890000
41	804	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0329000(हेक्टेयर)	0.0329000
42	805	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.2886000(हेक्टेयर)	0.2886000
43	807	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0350000(हेक्टेयर)	0.0350000
44	808	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
45	809	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000

46	810	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
47	811	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0175000(हेक्टेयर)	0.0175000
48	812	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.2100000(हेक्टेयर)	0.2100000
49	813	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1308000(हेक्टेयर)	0.1308000
50	814	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
51	815	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0645000(हेक्टेयर)	0.0645000
52	817 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0215000(हेक्टेयर)	0.0215000
53	838 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000
54	838 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0757000(हेक्टेयर)	0.0757000
55	839	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
56	840	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0354000(हेक्टेयर)	0.0354000
57	841	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
58	842 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
59	842 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.2308000(हेक्टेयर)	0.2308000
60	842 / 4	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
61	842 / 5	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
62	842 / 6	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
63	842 / 7	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0234000(हेक्टेयर)	0.0234000
64	843	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
65	878	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.1102000(हेक्टेयर)	0.1102000
66	879	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
67	880	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
68	881	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
69	882	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
70	883	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.2800000(हेक्टेयर)	0.2800000
71	884	सरकारी	घास	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
72	885	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.2044000(हेक्टेयर)	0.2044000
73	890 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0660000(हेक्टेयर)	0.0660000
74	890 / 4	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0391000(हेक्टेयर)	0.0391000

75	953	सरकारी	नाला	0.1241000(हेक्टेयर)	0.1241000
गांव का नाम: कमरौद					
1	120	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0344000(हेक्टेयर)	0.0344000
2	122	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.3187000(हेक्टेयर)	0.3187000
3	123	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2801000(हेक्टेयर)	0.2801000
4	124	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2415000(हेक्टेयर)	0.2415000
5	132	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.3493000(हेक्टेयर)	0.3493000
6	133	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2801000(हेक्टेयर)	0.2801000
7	134	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0780000(हेक्टेयर)	0.0780000
8	135	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0699000(हेक्टेयर)	0.0699000
9	140	सरकारी	नहर नाली	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
10	141	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2194000(हेक्टेयर)	0.2194000
11	142	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2200000(हेक्टेयर)	0.2200000
12	203	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.3013000(हेक्टेयर)	0.3013000
13	204	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1536000(हेक्टेयर)	0.1536000
14	205	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1649000(हेक्टेयर)	0.1649000
15	206	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0487000(हेक्टेयर)	0.0487000
16	207 / 1	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
17	207 / 2	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
18	208	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0988000(हेक्टेयर)	0.0988000
19	209	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1652000(हेक्टेयर)	0.1652000
20	210	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.4796000(हेक्टेयर)	0.4796000
21	240	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0959000(हेक्टेयर)	0.0959000
22	241	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
23	242	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
24	243	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0219000(हेक्टेयर)	0.0219000
25	244	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1370000(हेक्टेयर)	0.1370000
26	245	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0071000(हेक्टेयर)	0.0071000
27	246	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0104000(हेक्टेयर)	0.0104000
28	247	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0339000(हेक्टेयर)	0.0339000

29	248	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2700000(हेक्टेयर)	0.2700000
30	249	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
31	250	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
32	251	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1343000(हेक्टेयर)	0.1343000
33	255	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0274000(हेक्टेयर)	0.0274000
34	256	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1944000(हेक्टेयर)	0.1944000
35	263	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.3477000(हेक्टेयर)	0.3477000
36	311	सरकारी	घास	2.0000000(हेक्टेयर)	2.0000000
37	445	सरकारी	घास	0.4921000(हेक्टेयर)	0.4921000
38	451	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.3500000(हेक्टेयर)	0.3500000
39	452	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0326000(हेक्टेयर)	0.0326000
40	453	सरकारी	घास	0.2401000(हेक्टेयर)	0.2401000
41	454	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2900000(हेक्टेयर)	0.2900000
42	455	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1166000(हेक्टेयर)	0.1166000
43	456	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0885000(हेक्टेयर)	0.0885000
44	458 / 1	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1475000(हेक्टेयर)	0.1475000
45	458 / 2	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0563000(हेक्टेयर)	0.0563000
46	459	सरकारी	नाला	0.1306000(हेक्टेयर)	0.1306000
47	474	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0650000(हेक्टेयर)	0.0650000
48	475	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0318000(हेक्टेयर)	0.0318000
गांव का नाम: करगा					
1	1018	निजी	सिंचित	0.2300000(हेक्टेयर)	0.2300000
2	102	निजी	सिंचित	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000
3	1028 / 1	निजी	सिंचित	0.2100000(हेक्टेयर)	0.2100000
4	1029	निजी	सिंचित	0.2300000(हेक्टेयर)	0.2300000
5	103	निजी	सिंचित	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
6	1030	निजी	सिंचित	0.2515000(हेक्टेयर)	0.2515000
7	104	निजी	सिंचित	0.0865000(हेक्टेयर)	0.0865000
8	1066	निजी	सिंचित	0.2675000(हेक्टेयर)	0.2675000
9	1067 / 1	निजी	सिंचित	0.1585000(हेक्टेयर)	0.1585000

10	1068	निजी	सिंचित	0.2400000(हेक्टेयर)	0.2400000
11	1071	निजी	सिंचित	0.1847000(हेक्टेयर)	0.1847000
12	1072	निजी	सिंचित	0.0497000(हेक्टेयर)	0.0497000
13	1076	निजी	सिंचित	0.0185000(हेक्टेयर)	0.0185000
14	1079	निजी	सिंचित	0.0492000(हेक्टेयर)	0.0492000
15	1080	निजी	सिंचित	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
16	1081	निजी	सिंचित	0.2566000(हेक्टेयर)	0.2566000
17	1082	निजी	सिंचित	0.2996000(हेक्टेयर)	0.2996000
18	1085	निजी	सिंचित	0.0346000(हेक्टेयर)	0.0346000
19	1086	निजी	सिंचित	0.0870000(हेक्टेयर)	0.0870000
20	1087	निजी	सिंचित	0.1060000(हेक्टेयर)	0.1060000
21	1123	निजी	सिंचित	0.0774000(हेक्टेयर)	0.0774000
22	1124	निजी	सिंचित	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
23	1125	निजी	सिंचित	0.0472000(हेक्टेयर)	0.0472000
24	1126 / 1	निजी	सिंचित	0.1322000(हेक्टेयर)	0.1322000
25	1126 / 2	निजी	सिंचित	0.1358000(हेक्टेयर)	0.1358000
26	1127	निजी	सिंचित	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
27	1128 / 1	निजी	सिंचित	0.2120000(हेक्टेयर)	0.2120000
28	1129 / 1 - 2	निजी	सिंचित	0.0396000(हेक्टेयर)	0.0396000
29	1130	निजी	सिंचित	0.0472000(हेक्टेयर)	0.0472000
30	1135	निजी	सिंचित	0.2223000(हेक्टेयर)	0.2223000
31	1136	निजी	सिंचित	0.0232000(हेक्टेयर)	0.0232000
32	1137	निजी	सिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
33	1138	निजी	सिंचित	0.2100000(हेक्टेयर)	0.2100000
34	1139	निजी	सिंचित	0.4440000(हेक्टेयर)	0.4440000
35	1140	निजी	सिंचित	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
36	1141	निजी	सिंचित	0.2986000(हेक्टेयर)	0.2986000
37	1153	सरकारी	नाला	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
38	244	सरकारी	नाला	0.0105000(हेक्टेयर)	0.0105000
39	264	सरकारी	घास	0.4939000(हेक्टेयर)	0.4939000

40	338 / 1	निजी	सिंचित	0.0751000(हेक्टेयर)	0.0751000
41	340 / 1	निजी	सिंचित	0.0892000(हेक्टेयर)	0.0892000
42	340 / 3	निजी	सिंचित	0.0680000(हेक्टेयर)	0.0680000
43	341	निजी	सिंचित	0.2800000(हेक्टेयर)	0.2800000
44	342	निजी	सिंचित	0.2456000(हेक्टेयर)	0.2456000
45	344 / 1	निजी	सिंचित	0.0691000(हेक्टेयर)	0.0691000
46	344/ 2	निजी	सिंचित	0.3725000(हेक्टेयर)	0.3725000
47	345	निजी	सिंचित	0.3602000(हेक्टेयर)	0.3602000
48	346	निजी	सिंचित	0.4717000(हेक्टेयर)	0.4717000
49	351	निजी	सिंचित	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
50	352	निजी	सिंचित	0.2852000(हेक्टेयर)	0.2852000
51	353	निजी	सिंचित	0.2962000(हेक्टेयर)	0.2962000
52	419	सरकारी	नाला	0.0397000(हेक्टेयर)	0.0397000
53	423	निजी	सिंचित	0.2363000(हेक्टेयर)	0.2363000
54	424	निजी	सिंचित	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
55	425	निजी	सिंचित	0.2138000(हेक्टेयर)	0.2138000
56	426	निजी	सिंचित	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
57	427	निजी	सिंचित	0.2600000(हेक्टेयर)	0.2600000
58	428	निजी	सिंचित	0.1684000(हेक्टेयर)	0.1684000
59	432	निजी	सिंचित	0.0221000(हेक्टेयर)	0.0221000
60	475	सरकारी	नाला	0.0353000(हेक्टेयर)	0.0353000
61	478	निजी	सिंचित	0.1125000(हेक्टेयर)	0.1125000
62	479	निजी	सिंचित	0.0244000(हेक्टेयर)	0.0244000
63	480	निजी	सिंचित	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
64	481	निजी	सिंचित	0.1590000(हेक्टेयर)	0.1590000
65	482	निजी	सिंचित	0.3964000(हेक्टेयर)	0.3964000
66	602	निजी	सिंचित	0.3105000(हेक्टेयर)	0.3105000
67	603 / 1	निजी	सिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
68	603 / 2	निजी	सिंचित	0.0340000(हेक्टेयर)	0.0340000
69	603 / 3	निजी	सिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000

70	62	निजी	सिंचित	0.0063000(हेक्टेयर)	0.0063000
71	629	निजी	सिंचित	0.0156000(हेक्टेयर)	0.0156000
72	630	निजी	सिंचित	0.1226000(हेक्टेयर)	0.1226000
73	631 / 1 , 631 / 2	निजी	सिंचित	0.3000000(हेक्टेयर)	0.3000000
74	631 / 3	निजी	सिंचित	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
75	633	निजी	सिंचित	0.0257000(हेक्टेयर)	0.0257000
76	635	निजी	सिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
77	636	निजी	सिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
78	637	निजी	सिंचित	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
79	638	निजी	सिंचित	0.1292000(हेक्टेयर)	0.1292000
80	639	निजी	सिंचित	0.0543000(हेक्टेयर)	0.0543000
81	642	निजी	सिंचित	0.1120000(हेक्टेयर)	0.1120000
82	643	निजी	सिंचित	0.4935000(हेक्टेयर)	0.4935000
83	648	निजी	सिंचित	0.5300000(हेक्टेयर)	0.5300000
84	649	सरकारी	नहर	0.1507000(हेक्टेयर)	0.1507000
85	650	निजी	सिंचित	0.1312000(हेक्टेयर)	0.1312000
86	79	निजी	सिंचित	0.0360000(हेक्टेयर)	0.0360000
87	819	निजी	सिंचित	0.0578000(हेक्टेयर)	0.0578000
88	820 / 1	निजी	सिंचित	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
89	820 / 2	निजी	सिंचित	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
90	821	निजी	सिंचित	0.3555000(हेक्टेयर)	0.3555000
91	822	निजी	सिंचित	0.1141000(हेक्टेयर)	0.1141000
92	823	निजी	सिंचित	0.1790000(हेक्टेयर)	0.1790000
93	831	सरकारी	रास्ता	0.1518000(हेक्टेयर)	0.1518000
94	86	निजी	सिंचित	0.0581000(हेक्टेयर)	0.0581000
95	860 / 2	निजी	सिंचित	0.1457000(हेक्टेयर)	0.1457000
96	861	निजी	सिंचित	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
97	862	निजी	सिंचित	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
98	863	निजी	सिंचित	0.0424000(हेक्टेयर)	0.0424000
99	864	निजी	सिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000

100	865	निजी	सिंचित	0.3607000(हेक्टेयर)	0.3607000
101	87	निजी	सिंचित	0.0851000(हेक्टेयर)	0.0851000
102	88	निजी	सिंचित	0.1579000(हेक्टेयर)	0.1579000
103	882	निजी	सिंचित	0.0699000(हेक्टेयर)	0.0699000
104	883	निजी	सिंचित	0.7532000(हेक्टेयर)	0.7532000
105	884	निजी	सिंचित	0.0334000(हेक्टेयर)	0.0334000
106	89	निजी	सिंचित	0.3100000(हेक्टेयर)	0.3100000
107	90	निजी	सिंचित	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
108	91	निजी	सिंचित	0.4412000(हेक्टेयर)	0.4412000
109	938	निजी	सिंचित	0.0844000(हेक्टेयर)	0.0844000
110	94	निजी	सिंचित	0.0763000(हेक्टेयर)	0.0763000
111	941	निजी	सिंचित	0.1916000(हेक्टेयर)	0.1916000
112	942	निजी	सिंचित	0.4281000(हेक्टेयर)	0.4281000
113	943	निजी	सिंचित	0.0881000(हेक्टेयर)	0.0881000
114	944	निजी	सिंचित	0.1692000(हेक्टेयर)	0.1692000
115	945	निजी	सिंचित	0.1062000(हेक्टेयर)	0.1062000
116	946	सरकारी	सेवाभूमि	0.2295000(हेक्टेयर)	0.2295000
117	95	निजी	सिंचित	1.3600000(हेक्टेयर)	1.3600000
118	96	निजी	सिंचित	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
119	968	निजी	सिंचित	0.2073000(हेक्टेयर)	0.2073000
120	97	निजी	सिंचित	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
121	971	निजी	सिंचित	0.0240000(हेक्टेयर)	0.0240000
122	972	निजी	सिंचित	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000
123	973	निजी	सिंचित	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000
124	974	निजी	सिंचित	0.1672000(हेक्टेयर)	0.1672000
125	975	निजी	सिंचित	0.0092000(हेक्टेयर)	0.0092000
126	976	सरकारी	नाली	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
127	977	सरकारी	सिंचित (सेवा भूमि)	0.0464000(हेक्टेयर)	0.0464000
128	978	निजी	सिंचित	0.0322000(हेक्टेयर)	0.0322000
129	979	निजी	सिंचित	0.0943000(हेक्टेयर)	0.0943000

130	98	निजी	सिंचित	0.2195000(हेक्टेयर)	0.2195000
131	980	निजी	सिंचित	0.4600000(हेक्टेयर)	0.4600000
132	99	निजी	सिंचित	0.0985000(हेक्टेयर)	0.0985000
गांव का नाम: कोडापार					
1	641	सरकारी	नाला (पानी के निचे)	0.0796000(हेक्टेयर)	0.0796000
2	642	सरकारी	सड़क	0.0684000(हेक्टेयर)	0.0684000
3	643	निजी	सिंचित	0.0914000(हेक्टेयर)	0.0914000
4	644	सरकारी	घास	0.0962000(हेक्टेयर)	0.0962000
5	655	सरकारी	सड़क	0.1259000(हेक्टेयर)	0.1259000
6	729	निजी	सिंचित	0.1125000(हेक्टेयर)	0.1125000
7	730	निजी	सिंचित	1.0000000(हेक्टेयर)	1.0000000
8	731 / 1	निजी	सिंचित	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
9	731 / 2	निजी	सिंचित	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
10	732	निजी	सिंचित	0.0594000(हेक्टेयर)	0.0594000
11	733	निजी	सिंचित	0.1052000(हेक्टेयर)	0.1052000
12	737 / 1	निजी	सिंचित	0.0244000(हेक्टेयर)	0.0244000
13	737 / 2	निजी	सिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
14	737 / 3	निजी	सिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
15	738	निजी	सिंचित	0.2355000(हेक्टेयर)	0.2355000
16	741	निजी	सिंचित	0.0958000(हेक्टेयर)	0.0958000
17	742	निजी	सिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
18	743	निजी	सिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
19	744	निजी	सिंचित	0.1734000(हेक्टेयर)	0.1734000
20	747	निजी	सिंचित	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
21	748 / 1	निजी	सिंचित	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
22	748 / 2	निजी	सिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
23	748 / 3	निजी	सिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
24	749	निजी	सिंचित	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
25	750	निजी	सिंचित	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
26	751	निजी	सिंचित	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000

27	752	निजी	सिंचित	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
28	753	निजी	सिंचित	0.1609000(हेक्टेयर)	0.1609000
29	754	निजी	सिंचित	0.0340000(हेक्टेयर)	0.0340000
30	755	निजी	सिंचित	0.0669000(हेक्टेयर)	0.0669000
31	758	निजी	सिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
गांव का नाम: कोटगांव					
1	729	निजी	सिंचित	0.0960000(हेक्टेयर)	0.0960000
2	736	निजी	सिंचित	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
3	742	निजी	सिंचित	0.0590000(हेक्टेयर)	0.0590000
4	743	निजी	सिंचित	0.4460000(हेक्टेयर)	0.4460000
5	744	निजी	सिंचित	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
6	745	निजी	सिंचित	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
7	746	निजी	सिंचित	0.0440000(हेक्टेयर)	0.0440000
8	747 / 1	निजी	सिंचित	0.6250000(हेक्टेयर)	0.6250000
9	747 / 2	निजी	सिंचित	0.3900000(हेक्टेयर)	0.3900000
10	748	निजी	सिंचित	0.1850000(हेक्टेयर)	0.1850000
11	758	सरकारी	नाला (गैर कृषि)	0.1030000(हेक्टेयर)	0.1030000
गांव का नाम: कुहकुहा					
1	425	निजी	सिंचित	0.0530000(हेक्टेयर)	0.0530000
2	426	निजी	सिंचित	0.0544000(हेक्टेयर)	0.0544000
3	434	निजी	सिंचित	0.0114000(हेक्टेयर)	0.0114000
4	435	निजी	सिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
5	436	निजी	सिंचित	0.2200000(हेक्टेयर)	0.2200000
6	437	निजी	सिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
7	438	निजी	सिंचित	0.0439000(हेक्टेयर)	0.0439000
8	439 / 1	निजी	सिंचित	0.2055000(हेक्टेयर)	0.2055000
9	439 / 2	निजी	सिंचित	0.3986000(हेक्टेयर)	0.3986000
10	440	निजी	सिंचित	0.0173000(हेक्टेयर)	0.0173000
गांव का नाम: कुरुद					
1	1076 / 12	निजी	सिंचित दो फसली	0.1850000(हेक्टेयर)	0.1850000

2	1078 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1890000(हेक्टेयर)	0.1890000
3	1078 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.7068000(हेक्टेयर)	0.7068000
4	1078 / 3	निजी	सिंचित दो फसली	0.1783000(हेक्टेयर)	0.1783000
5	1079	निजी	सिंचित दो फसली	0.2054000(हेक्टेयर)	0.2054000
6	1080 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.3040000(हेक्टेयर)	0.3040000
7	1080 / 10	निजी	सिंचित दो फसली	0.1089000(हेक्टेयर)	0.1089000
8	1080 / 11	निजी	सिंचित दो फसली	0.1641000(हेक्टेयर)	0.1641000
9	1080 / 3 / 4 / 6	निजी	सिंचित दो फसली	0.2092000(हेक्टेयर)	0.2092000
10	1080 / 7	निजी	सिंचित दो फसली	0.7130000(हेक्टेयर)	0.7130000
11	438 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1632000(हेक्टेयर)	0.1632000
12	438 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1039000(हेक्टेयर)	0.1039000
13	438 / 9	निजी	सिंचित दो फसली	0.3255000(हेक्टेयर)	0.3255000
14	438 / 3	निजी	सिंचित दो फसली	0.4613000(हेक्टेयर)	0.4613000
15	438 / 8	निजी	सिंचित दो फसली	0.3842000(हेक्टेयर)	0.3842000
16	446 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.2757000(हेक्टेयर)	0.2757000
17	446 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0859000(हेक्टेयर)	0.0859000
18	446 / 3	निजी	सिंचित दो फसली	0.2710000(हेक्टेयर)	0.2710000
19	447	निजी	सिंचित दो फसली	0.3610000(हेक्टेयर)	0.3610000
20	448 / 3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0883000(हेक्टेयर)	0.0883000
21	449	निजी	सिंचित दो फसली	0.0125000(हेक्टेयर)	0.0125000
22	450 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.3300000(हेक्टेयर)	0.3300000
23	450 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000
24	452 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0390000(हेक्टेयर)	0.0390000
25	452 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
26	452 / 4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0882000(हेक्टेयर)	0.0882000
27	455 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0540000(हेक्टेयर)	0.0540000
28	455 / 11	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
29	455 / 13	निजी	सिंचित दो फसली	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
30	455 / 14	निजी	सिंचित दो फसली	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
31	455 / 15	निजी	सिंचित दो फसली	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000

32	455 / 16	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
33	455 / 17	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
34	455 / 3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0816000(हेक्टेयर)	0.0816000
35	455 / 4	निजी	सिंचित दो फसली	0.2781000(हेक्टेयर)	0.2781000
36	455 / 6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0519000(हेक्टेयर)	0.0519000
37	455 / 7	निजी	सिंचित दो फसली	0.2600000(हेक्टेयर)	0.2600000
38	456 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.4328000(हेक्टेयर)	0.4328000
39	456 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0820000(हेक्टेयर)	0.0820000
40	456 / 3	निजी	सिंचित दो फसली	0.4323000(हेक्टेयर)	0.4323000
41	456 / 5	निजी	सिंचित दो फसली	0.3100000(हेक्टेयर)	0.3100000
42	456 / 6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
43	456 / 7	निजी	सिंचित दो फसली	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
44	456 / 8	निजी	सिंचित दो फसली	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
45	456 / 9	निजी	सिंचित दो फसली	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
46	497 / 1	सरकारी	रोड	0.0790000(हेक्टेयर)	0.0790000
गांव का नाम: मेंडरका					
1	773 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.3100000(हेक्टेयर)	0.3100000
2	165	निजी	सिंचित दो फसली	0.0662000(हेक्टेयर)	0.0662000
3	173	सरकारी	रास्ता	0.1408000(हेक्टेयर)	0.1408000
4	174	निजी	सिंचित दो फसली	0.6284000(हेक्टेयर)	0.6284000
5	175	निजी	सिंचित दो फसली	0.1018000(हेक्टेयर)	0.1018000
6	176 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.2900000(हेक्टेयर)	0.2900000
7	176 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1051000(हेक्टेयर)	0.1051000
8	177	निजी	सिंचित दो फसली	0.0226000(हेक्टेयर)	0.0226000
9	182 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0890000(हेक्टेयर)	0.0890000
10	182 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.3380000(हेक्टेयर)	0.3380000
11	183	निजी	सिंचित दो फसली	0.1057000(हेक्टेयर)	0.1057000
12	184	निजी	सिंचित दो फसली	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
13	185	निजी	सिंचित दो फसली	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
14	186	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000

15	187 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1390000(हेक्टेयर)	0.1390000
16	187 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.2165000(हेक्टेयर)	0.2165000
17	188	निजी	सिंचित दो फसली	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
18	189 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
19	189 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.2700000(हेक्टेयर)	0.2700000
20	190	निजी	सिंचित दो फसली	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
21	191	निजी	सिंचित दो फसली	0.5000000(हेक्टेयर)	0.5000000
22	192 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.4600000(हेक्टेयर)	0.4600000
23	193	निजी	सिंचित दो फसली	0.0304000(हेक्टेयर)	0.0304000
24	199	निजी	सिंचित दो फसली	0.1354000(हेक्टेयर)	0.1354000
25	201	निजी	सिंचित दो फसली	0.2275000(हेक्टेयर)	0.2275000
26	202	निजी	सिंचित दो फसली	0.0373000(हेक्टेयर)	0.0373000
27	203	निजी	सिंचित दो फसली	0.1340000(हेक्टेयर)	0.1340000
28	204	निजी	सिंचित दो फसली	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
29	205 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0683000(हेक्टेयर)	0.0683000
30	211	निजी	सिंचित दो फसली	0.3500000(हेक्टेयर)	0.3500000
31	212	निजी	सिंचित दो फसली	0.3400000(हेक्टेयर)	0.3400000
32	213	निजी	सिंचित दो फसली	0.1369000(हेक्टेयर)	0.1369000
33	230 / 1	सरकारी	नाला	0.0669000(हेक्टेयर)	0.0669000
34	249 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.3272000(हेक्टेयर)	0.3272000
35	249 / 3	निजी	सिंचित दो फसली	0.2152000(हेक्टेयर)	0.2152000
36	249 / 4	निजी	सिंचित दो फसली	0.2700000(हेक्टेयर)	0.2700000
37	475	निजी	सिंचित दो फसली	0.2395000(हेक्टेयर)	0.2395000
38	476	निजी	सिंचित दो फसली	0.2112000(हेक्टेयर)	0.2112000
39	477	निजी	सिंचित दो फसली	0.1798000(हेक्टेयर)	0.1798000
40	478	निजी	सिंचित दो फसली	0.2400000(हेक्टेयर)	0.2400000
41	479	निजी	सिंचित दो फसली	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
42	480	निजी	सिंचित दो फसली	0.0968000(हेक्टेयर)	0.0968000
43	482	सरकारी	नाली	0.0430000(हेक्टेयर)	0.0430000
44	485	निजी	सिंचित दो फसली	0.9333000(हेक्टेयर)	0.9333000

45	486	निजी	सिंचित दो फसली	0.0222000(हेक्टेयर)	0.0222000
46	487	निजी	सिंचित दो फसली	0.8300000(हेक्टेयर)	0.8300000
47	488	निजी	सिंचित दो फसली	0.3009000(हेक्टेयर)	0.3009000
48	489	निजी	सिंचित दो फसली	0.1913000(हेक्टेयर)	0.1913000
49	541	निजी	सिंचित दो फसली	0.0843000(हेक्टेयर)	0.0843000
50	542 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0199000(हेक्टेयर)	0.0199000
51	546	निजी	सिंचित दो फसली	0.4500000(हेक्टेयर)	0.4500000
52	552	निजी	सिंचित दो फसली	0.1223000(हेक्टेयर)	0.1223000
53	600	सरकारी	नहर	0.1208000(हेक्टेयर)	0.1208000
54	627	सरकारी	नाली	0.0536000(हेक्टेयर)	0.0536000
55	631	निजी	सिंचित दो फसली	0.3361000(हेक्टेयर)	0.3361000
56	632	निजी	सिंचित दो फसली	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
57	633	निजी	सिंचित दो फसली	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
58	634	निजी	सिंचित दो फसली	0.0285000(हेक्टेयर)	0.0285000
59	640	सरकारी	रास्ता	0.0304000(हेक्टेयर)	0.0304000
60	646	सरकारी	घास	0.5248000(हेक्टेयर)	0.5248000
61	721	सरकारी	रास्ता	0.0241000(हेक्टेयर)	0.0241000
62	729	निजी	सिंचित दो फसली	0.9500000(हेक्टेयर)	0.9500000
63	730	सरकारी	घास	0.0526000(हेक्टेयर)	0.0526000
64	752	निजी	सिंचित दो फसली	0.1881000(हेक्टेयर)	0.1881000
65	754	निजी	सिंचित दो फसली	0.0783000(हेक्टेयर)	0.0783000
66	755	निजी	सिंचित दो फसली	0.2728000(हेक्टेयर)	0.2728000
67	756	निजी	सिंचित दो फसली	0.3400000(हेक्टेयर)	0.3400000
68	757	निजी	सिंचित दो फसली	0.0264000(हेक्टेयर)	0.0264000
69	760	निजी	सिंचित दो फसली	0.0426000(हेक्टेयर)	0.0426000
70	761	निजी	सिंचित दो फसली	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
71	762 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1309000(हेक्टेयर)	0.1309000
72	762 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1353000(हेक्टेयर)	0.1353000
73	763	निजी	सिंचित दो फसली	0.0360000(हेक्टेयर)	0.0360000
74	764 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.2311000(हेक्टेयर)	0.2311000

75	764 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1232000(हेक्टेयर)	0.1232000
76	765	निजी	सिंचित दो फसली	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
77	771 / 2	निजी	सिंचित दो फसली	0.3400000(हेक्टेयर)	0.3400000
78	771/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1489000(हेक्टेयर)	0.1489000
79	772	निजी	सिंचित दो फसली	0.0481000(हेक्टेयर)	0.0481000
80	773 / 1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0264000(हेक्टेयर)	0.0264000
81	774	निजी	सिंचित दो फसली	0.3074000(हेक्टेयर)	0.3074000
गांव का नाम: नवागांव					
1	38	निजी	सिंचित दो फसली	0.2097000(हेक्टेयर)	0.2097000
2	40	सरकारी	तालाब पार	0.4000000(हेक्टेयर)	0.4000000
3	41	सरकारी	तालाब	0.5300000(हेक्टेयर)	0.5300000
4	42 /1	निजी	सिंचित दो फसली	0.4700000(हेक्टेयर)	0.4700000
5	42/2	निजी	परिवर्तित	0.0619000(हेक्टेयर)	0.0619000
6	43	सरकारी	सड़क	0.1693000(हेक्टेयर)	0.1693000
7	46	निजी	पडत	0.0577000(हेक्टेयर)	0.0577000
8	47 /1	निजी	सिंचित दो फसली	0.3626000(हेक्टेयर)	0.3626000
9	47 /2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
10	47 /3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
11	48	निजी	सिंचित दो फसली	0.2829000(हेक्टेयर)	0.2829000
गांव का नाम: परसवानी					
1	1	सरकारी	नाला	0.1991000(हेक्टेयर)	0.1991000
2	108	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1274000(हेक्टेयर)	0.1274000
3	151	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0954000(हेक्टेयर)	0.0954000
4	152	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0328000(हेक्टेयर)	0.0328000
5	153 / 1	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1935000(हेक्टेयर)	0.1935000
6	153 / 2	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.6200000(हेक्टेयर)	0.6200000
7	155	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2760000(हेक्टेयर)	0.2760000
8	156	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.5624000(हेक्टेयर)	0.5624000
9	157	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.3561000(हेक्टेयर)	0.3561000
10	158	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2859000(हेक्टेयर)	0.2859000

11	160	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.5080000(हेक्टेयर)	0.5080000
12	162	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.9500000(हेक्टेयर)	0.9500000
13	41	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.7034000(हेक्टेयर)	0.7034000
14	43	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0205000(हेक्टेयर)	0.0205000
15	44	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0627000(हेक्टेयर)	0.0627000
16	46	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2497000(हेक्टेयर)	0.2497000
17	47 / 1	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1462000(हेक्टेयर)	0.1462000
18	47 / 2	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1310000(हेक्टेयर)	0.1310000
19	48 / 2	निजी	सिंचित दो फसलीय	1.0200000(हेक्टेयर)	1.0200000
20	48 / 3	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0178000(हेक्टेयर)	0.0178000
21	63	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0519000(हेक्टेयर)	0.0519000
22	64	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.4000000(हेक्टेयर)	0.4000000
23	65	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0849000(हेक्टेयर)	0.0849000
24	66 / 1	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
25	66 / 2	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.0490000(हेक्टेयर)	0.0490000
26	67	सरकारी	घास	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
27	68	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
28	69	निजी	सिंचित एक फसलीय	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
29	70	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2371000(हेक्टेयर)	0.2371000
30	71	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2311000(हेक्टेयर)	0.2311000
31	735 , 162 / 735	निजी	सिंचित दो फसलीय	0.2901000(हेक्टेयर)	0.2901000
32	91	सरकारी	घास	0.1766000(हेक्टेयर)	0.1766000
33	95	सरकारी	घास	0.0666000(हेक्टेयर)	0.0666000
34	98	सरकारी	घास	0.2382000(हेक्टेयर)	0.2382000
गांव का नाम: सिंधौरीकला					
1	102	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0601000(हेक्टेयर)	0.0601000
2	103	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
3	104	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1528000(हेक्टेयर)	0.1528000

4	105	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.1114000(हेक्टेयर)	0.1114000
5	106	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.3492000(हेक्टेयर)	0.3492000
6	112	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.5374000(हेक्टेयर)	0.5374000
7	113	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1096000(हेक्टेयर)	0.1096000
8	116	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
9	117 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
10	117 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0154000(हेक्टेयर)	0.0154000
11	118	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2974000(हेक्टेयर)	0.2974000
12	119	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0054000(हेक्टेयर)	0.0054000
13	122	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2300000(हेक्टेयर)	0.2300000
14	123	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1817000(हेक्टेयर)	0.1817000
15	124	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1657000(हेक्टेयर)	0.1657000
16	125	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0720000(हेक्टेयर)	0.0720000
17	127	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0971000(हेक्टेयर)	0.0971000
18	128	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
19	129	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
20	13	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1234000(हेक्टेयर)	0.1234000
21	130	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2800000(हेक्टेयर)	0.2800000
22	131	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
23	132 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0999000(हेक्टेयर)	0.0999000
24	133	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0199000(हेक्टेयर)	0.0199000
25	134	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000

26	135	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
27	136	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
28	137	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
29	138	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
30	139	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.4200000(हेक्टेयर)	0.4200000
31	14	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1359000(हेक्टेयर)	0.1359000
32	140	सरकारी	नाला	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
33	146	सरकारी	घास	0.1574000(हेक्टेयर)	0.1574000
34	147	सरकारी	घास	0.0308000(हेक्टेयर)	0.0308000
35	15	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1420000(हेक्टेयर)	0.1420000
36	590	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.3445000(हेक्टेयर)	0.3445000
37	591	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.7357000(हेक्टेयर)	0.7357000
38	592	सरकारी	आबादी	0.1024000(हेक्टेयर)	0.1024000
39	593	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2259000(हेक्टेयर)	0.2259000
40	7	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2200000(हेक्टेयर)	0.2200000
41	8	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2582000(हेक्टेयर)	0.2582000
42	9 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0919000(हेक्टेयर)	0.0919000
गांव का नाम: सिंधौरीखुर्द					
1	259	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1452000(हेक्टेयर)	0.1452000
2	268	सरकारी	सड़क	0.0309000(हेक्टेयर)	0.0309000
3	271	सरकारी	घास	0.0447000(हेक्टेयर)	0.0447000
4	272	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
5	273 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
6	273/2	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0123000(हेक्टेयर)	0.0123000

7	274	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0384000(हेक्टेयर)	0.0384000
8	275	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0136000(हेक्टेयर)	0.0136000
9	276	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
10	277	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
11	278	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.3674000(हेक्टेयर)	0.3674000
12	279	सरकारी	घास	0.1415000(हेक्टेयर)	0.1415000
13	280	सरकारी	घास	0.1054000(हेक्टेयर)	0.1054000
14	281	सरकारी	घास	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
15	282	सरकारी	घास	0.2417000(हेक्टेयर)	0.2417000
16	283	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2200000(हेक्टेयर)	0.2200000
17	284	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.3800000(हेक्टेयर)	0.3800000
18	287	सरकारी	धनहा सिंचित दो फसली (सेवा भूमि)	0.4900000(हेक्टेयर)	0.4900000
19	463 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0215000(हेक्टेयर)	0.0215000
20	468	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.4500000(हेक्टेयर)	0.4500000
21	469 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.4709000(हेक्टेयर)	0.4709000
22	472 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
23	477 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.4594000(हेक्टेयर)	0.4594000
24	477 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1883000(हेक्टेयर)	0.1883000
25	478 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1234000(हेक्टेयर)	0.1234000
26	478 / 5	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.4000000(हेक्टेयर)	0.4000000
27	481	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0849000(हेक्टेयर)	0.0849000
28	482	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2840000(हेक्टेयर)	0.2840000
29	483	निजी	धनहा सिंचित दो	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000

			फसलीय		
30	484	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.2037000(हेक्टेयर)	0.2037000
31	485 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
32	494	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1357000(हेक्टेयर)	0.1357000
33	495 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0762000(हेक्टेयर)	0.0762000
34	496	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0127000(हेक्टेयर)	0.0127000
35	497	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.9192000(हेक्टेयर)	0.9192000
36	499 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
37	499 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0640000(हेक्टेयर)	0.0640000
38	553 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2076000(हेक्टेयर)	0.2076000
39	553 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
40	554	सरकारी	नाला	0.0250000(हेक्टेयर)	0.0250000
41	555	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0814000(हेक्टेयर)	0.0814000
42	556 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
43	556 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
44	557	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.4351000(हेक्टेयर)	0.4351000
45	561 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0263000(हेक्टेयर)	0.0263000
46	561 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.4129000(हेक्टेयर)	0.4129000
47	561 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.3500000(हेक्टेयर)	0.3500000
48	562	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0805000(हेक्टेयर)	0.0805000
49	563 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2200000(हेक्टेयर)	0.2200000
50	563 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.3508000(हेक्टेयर)	0.3508000
51	564	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1112000(हेक्टेयर)	0.1112000

52	572	सरकारी	नाला	0.1274000(हेक्टेयर)	0.1274000
53	574 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0264000(हेक्टेयर)	0.0264000
54	574 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
गांव का नाम: सिरी					
1	1191	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.0185000(हेक्टेयर)	0.0185000
2	1192	निजी	धनहा असिंचित एक फसलीय	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
3	1193	निजी	धनहा असिंचित एक फसलीय	0.1147000(हेक्टेयर)	0.1147000
4	1194	निजी	धनहा असिंचित एक फसलीय	0.0626000(हेक्टेयर)	0.0626000
5	1195	निजी	धनहा असिंचित एक फसलीय	0.3550000(हेक्टेयर)	0.3550000
6	1196	निजी	धनहा असिंचित एक फसलीय	0.1829000(हेक्टेयर)	0.1829000
7	1197	सरकारी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.9454000(हेक्टेयर)	0.9454000
8	1218	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.1127000(हेक्टेयर)	0.1127000
9	1317	सरकारी	घास	0.1304000(हेक्टेयर)	0.1304000
10	1324	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2579000(हेक्टेयर)	0.2579000
11	1325	सरकारी	घास	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
12	1326	सरकारी	घास	0.0160000(हेक्टेयर)	0.0160000
13	1327	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.3483000(हेक्टेयर)	0.3483000
14	1328	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1064000(हेक्टेयर)	0.1064000
15	1329	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1504000(हेक्टेयर)	0.1504000
16	1330 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
17	1330 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
18	1330 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
19	1330 / 4	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0335000(हेक्टेयर)	0.0335000
20	1330 / 5	निजी	धनहा सिंचित दो	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000

			फसलीय		
21	1331	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0988000(हेक्टेयर)	0.0988000
22	1336	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.8472000(हेक्टेयर)	0.8472000
23	1338	सरकारी	नाला	0.0832000(हेक्टेयर)	0.0832000
24	1339 / 1	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.0070000(हेक्टेयर)	0.0070000
25	1339 / 3	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.6494000(हेक्टेयर)	0.6494000
26	1339/2	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.0273000(हेक्टेयर)	0.0273000
27	1354	निजी	धनहा असिंचित एक फसली	0.0335000(हेक्टेयर)	0.0335000
28	1378	सरकारी	नाला	0.1488000(हेक्टेयर)	0.1488000
29	1442	सरकारी	सड़क	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
30	1500 / 2	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.0131000(हेक्टेयर)	0.0131000
31	1540	सरकारी	पानी के निचे	0.0980000(हेक्टेयर)	0.0980000
32	1543	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000
33	1545 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0093000(हेक्टेयर)	0.0093000
34	1545 / 10	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0147000(हेक्टेयर)	0.0147000
35	1545 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
36	1545 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
37	1545 / 4	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
38	1545 / 5	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
39	1545 / 6	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
40	1545 / 7	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
41	1545 / 8	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
42	1545 / 9	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0186000(हेक्टेयर)	0.0186000
43	1545/11	निजी	धनहा सिंचित दो फसली	0.0060000(हेक्टेयर)	0.0060000

44	1546 / 1	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
45	1546 / 2	निजी	धनहा सिंचित फसलीय	0.3188000(हेक्टेयर)	0.3188000
46	1547	निजी	धनहा सिंचित फसलीय	0.1844000(हेक्टेयर)	0.1844000
47	1548	सरकारी	घास	0.2083000(हेक्टेयर)	0.2083000
48	1549	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0097000(हेक्टेयर)	0.0097000
49	1550	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0464000(हेक्टेयर)	0.0464000
50	1551	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0740000(हेक्टेयर)	0.0740000
51	1552	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.0091000(हेक्टेयर)	0.0091000
52	1553	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
53	1554	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.2137000(हेक्टेयर)	0.2137000
54	1555	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
55	1556	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.0134000(हेक्टेयर)	0.0134000
56	1563	निजी	धनहा एक फसलीय	0.0311000(हेक्टेयर)	0.0311000
57	1564	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.7100000(हेक्टेयर)	0.7100000
58	1565	सरकारी	चराई	0.0292000(हेक्टेयर)	0.0292000
59	1566	सरकारी	घास	0.1523000(हेक्टेयर)	0.1523000
60	1598	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.3600000(हेक्टेयर)	0.3600000
61	1599	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	1.3000000(हेक्टेयर)	1.3000000
62	1600	निजी	धनहा सिंचित फसलीय	0.2400000(हेक्टेयर)	0.2400000
63	1601	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0723000(हेक्टेयर)	0.0723000
64	1602	निजी	धनहा सिंचित फसलीय	0.0446000(हेक्टेयर)	0.0446000
65	1607 / 1	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
66	1607 / 12	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0290000(हेक्टेयर)	0.0290000
67	1607 / 13	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0351000(हेक्टेयर)	0.0351000

68	1607 / 17	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
69	1607 / 18	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
70	1607 / 19	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
71	1607 / 2	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
72	1607 / 20	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
73	1607 / 3	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0337000(हेक्टेयर)	0.0337000
74	1607 / 4	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0325000(हेक्टेयर)	0.0325000
75	1607 / 8	निजी	धनहा सिंचित दो फसलीय	0.0183000(हेक्टेयर)	0.0183000
76	1608	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.4800000(हेक्टेयर)	0.4800000
77	1609	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.1157000(हेक्टेयर)	0.1157000
78	1610	निजी	धनहा सिंचित फसलीय	0.2100000(हेक्टेयर)	0.2100000
79	1612	निजी	धनहा असिंचित एक फसली	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
80	1767	निजी	धनहा असिंचित एक फसली	0.9800000(हेक्टेयर)	0.9800000
81	1768	निजी	धनहा असिंचित एक फसली	0.0348000(हेक्टेयर)	0.0348000
82	1769	निजी	धनहा असिंचित एक फसली	0.3111000(हेक्टेयर)	0.3111000
83	1770	निजी	धनहा असिंचित एक फसली	0.2540000(हेक्टेयर)	0.2540000
84	1771	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.7200000(हेक्टेयर)	0.7200000
85	1773	सरकारी	नाला	0.0636000(हेक्टेयर)	0.0636000
86	1846	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.5582000(हेक्टेयर)	0.5582000
87	1847	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.3300000(हेक्टेयर)	0.3300000
88	1849	निजी	धनहा सिंचित एक फसलीय	0.0360000(हेक्टेयर)	0.0360000
गांव का नाम: सिवनीकला					
1	373/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1288000(हेक्टेयर)	0.1288000

2	10/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0430000(हेक्टेयर)	0.0430000
3	109	निजी	सिंचित दो फसली	0.0943000(हेक्टेयर)	0.0943000
4	110	निजी	सिंचित दो फसली	0.2500000(हेक्टेयर)	0.2500000
5	111	निजी	सिंचित दो फसली	0.2093000(हेक्टेयर)	0.2093000
6	112	निजी	सिंचित दो फसली	0.1226000(हेक्टेयर)	0.1226000
7	113/11	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
8	113/12	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
9	113/13	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
10	113/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0029000(हेक्टेयर)	0.0029000
11	113/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0073000(हेक्टेयर)	0.0073000
12	113/5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
13	113/7	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
14	113/8	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
15	113/9	निजी	सिंचित दो फसली	0.0390000(हेक्टेयर)	0.0390000
16	114/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
17	115/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0170000(हेक्टेयर)	0.0170000
18	115/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
19	115/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
20	115/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
21	115/5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
22	117	निजी	सिंचित दो फसली	0.0546000(हेक्टेयर)	0.0546000
23	118	निजी	सिंचित दो फसली	0.3747000(हेक्टेयर)	0.3747000
24	12	सरकारी	नाला	0.1586000(हेक्टेयर)	0.1586000
25	125	निजी	सिंचित दो फसली	0.1720000(हेक्टेयर)	0.1720000
26	126	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
27	127	निजी	सिंचित दो फसली	0.3904000(हेक्टेयर)	0.3904000
28	128	निजी	सिंचित दो फसली	0.0874000(हेक्टेयर)	0.0874000
29	13	निजी	सिंचित दो फसली	0.2500000(हेक्टेयर)	0.2500000
30	135	निजी	सिंचित दो फसली	0.0454000(हेक्टेयर)	0.0454000
31	136	निजी	सिंचित दो फसली	0.0170000(हेक्टेयर)	0.0170000

32	138	निजी	सिंचित दो फसली	0.3062000(हेक्टेयर)	0.3062000
33	139/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1162000(हेक्टेयर)	0.1162000
34	139/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.2145000(हेक्टेयर)	0.2145000
35	140	निजी	सिंचित दो फसली	0.0463000(हेक्टेयर)	0.0463000
36	141	निजी	सिंचित दो फसली	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
37	142/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1273000(हेक्टेयर)	0.1273000
38	142/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
39	142/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.4682000(हेक्टेयर)	0.4682000
40	142/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
41	142/5	निजी	सिंचित दो फसली	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
42	157/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0733000(हेक्टेयर)	0.0733000
43	169	निजी	सिंचित दो फसली	0.0326000(हेक्टेयर)	0.0326000
44	171	निजी	सिंचित दो फसली	0.0175000(हेक्टेयर)	0.0175000
45	172/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.2500000(हेक्टेयर)	0.2500000
46	172/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
47	172/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
48	173/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0285000(हेक्टेयर)	0.0285000
49	173/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0256000(हेक्टेयर)	0.0256000
50	173/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
51	173/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
52	173/5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
53	173/6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
54	174	निजी	सिंचित दो फसली	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
55	175	निजी	सिंचित दो फसली	0.0499000(हेक्टेयर)	0.0499000
56	177/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0375000(हेक्टेयर)	0.0375000
57	177/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0412000(हेक्टेयर)	0.0412000
58	178/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0169000(हेक्टेयर)	0.0169000
59	178/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
60	178/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
61	178/5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000

62	178/6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
63	178/7	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
64	183	निजी	सिंचित दो फसली	0.5600000(हेक्टेयर)	0.5600000
65	184	निजी	सिंचित दो फसली	0.0503000(हेक्टेयर)	0.0503000
66	185/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
67	185/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1910000(हेक्टेयर)	0.1910000
68	189	सरकारी	घास	0.1348000(हेक्टेयर)	0.1348000
69	19	निजी	सिंचित दो फसली	0.0178000(हेक्टेयर)	0.0178000
70	190	निजी	सिंचित दो फसली	0.2588000(हेक्टेयर)	0.2588000
71	191	निजी	सिंचित दो फसली	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000
72	192/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
73	192/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
74	194/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0319000(हेक्टेयर)	0.0319000
75	194/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
76	194/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
77	194/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
78	194/5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
79	194/6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
80	194/7	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
81	20/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
82	20/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
83	203	निजी	सिंचित दो फसली	0.1778000(हेक्टेयर)	0.1778000
84	204	निजी	सिंचित दो फसली	0.1827000(हेक्टेयर)	0.1827000
85	205	सरकारी	नहर नाली	0.0449000(हेक्टेयर)	0.0449000
86	207	सरकारी	सड़क रास्ता	0.0122000(हेक्टेयर)	0.0122000
87	208/1	सरकारी	खलिहान हेतु सुरक्षित	0.0089000(हेक्टेयर)	0.0089000
88	208/2	सरकारी	आबादी	0.2100000(हेक्टेयर)	0.2100000
89	209	सरकारी	आबादी	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
90	21	निजी	सिंचित दो फसली	0.1493000(हेक्टेयर)	0.1493000
91	210	सरकारी	आबादी	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000

92	212	सरकारी	रास्ता	0.1393000(हेक्टेयर)	0.1393000
93	213	निजी	सिंचित दो फसली	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
94	214	सरकारी	घास	0.1332000(हेक्टेयर)	0.1332000
95	23	सरकारी	घास	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
96	2383	निजी	सिंचित दो फसली	0.2250000(हेक्टेयर)	0.2250000
97	2384	निजी	सिंचित दो फसली	0.0928000(हेक्टेयर)	0.0928000
98	2394/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0158000(हेक्टेयर)	0.0158000
99	24	निजी	सिंचित दो फसली	0.2300000(हेक्टेयर)	0.2300000
100	25	निजी	सिंचित दो फसली	0.0651000(हेक्टेयर)	0.0651000
101	26	निजी	सिंचित दो फसली	0.0915000(हेक्टेयर)	0.0915000
102	27	निजी	सिंचित दो फसली	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
103	28	निजी	सिंचित दो फसली	0.0267000(हेक्टेयर)	0.0267000
104	372/1	सरकारी	घास	0.1256000(हेक्टेयर)	0.1256000
105	372/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
106	373/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1328000(हेक्टेयर)	0.1328000
107	374	निजी	सिंचित दो फसली	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
108	375/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
109	375/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
110	375/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
111	376	निजी	सिंचित दो फसली	0.3115000(हेक्टेयर)	0.3115000
112	378/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.3200000(हेक्टेयर)	0.3200000
113	379	निजी	सिंचित दो फसली	0.0074000(हेक्टेयर)	0.0074000
114	380/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
115	380/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
116	380/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
117	381	निजी	सिंचित दो फसली	0.0330000(हेक्टेयर)	0.0330000
118	384	सरकारी	नहर नाली	0.1695000(हेक्टेयर)	0.1695000
119	385	निजी	सिंचित दो फसली	0.0097000(हेक्टेयर)	0.0097000
120	388	निजी	सिंचित दो फसली	0.0914000(हेक्टेयर)	0.0914000
121	389	निजी	सिंचित दो फसली	0.1899000(हेक्टेयर)	0.1899000

122	390	निजी	सिंचित दो फसली	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
123	391	निजी	सिंचित दो फसली	0.2271000(हेक्टेयर)	0.2271000
124	392	निजी	सिंचित दो फसली	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
125	393/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
126	393/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.3777000(हेक्टेयर)	0.3777000
127	393/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0642000(हेक्टेयर)	0.0642000
128	394/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
129	394/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
130	394/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
131	395	निजी	सिंचित दो फसली	0.0624000(हेक्टेयर)	0.0624000
132	396/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0394000(हेक्टेयर)	0.0394000
133	396/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
134	396/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
135	397/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
136	397/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
137	398	निजी	सिंचित दो फसली	0.0660000(हेक्टेयर)	0.0660000
138	652	निजी	सिंचित दो फसली	0.1206000(हेक्टेयर)	0.1206000
139	653	निजी	सिंचित दो फसली	0.0790000(हेक्टेयर)	0.0790000
140	654	निजी	सिंचित दो फसली	0.0332000(हेक्टेयर)	0.0332000
141	657	निजी	सिंचित दो फसली	0.1522000(हेक्टेयर)	0.1522000
142	661	निजी	सिंचित दो फसली	0.0762000(हेक्टेयर)	0.0762000
143	662	निजी	सिंचित दो फसली	0.5492000(हेक्टेयर)	0.5492000
144	663	निजी	सिंचित दो फसली	0.1704000(हेक्टेयर)	0.1704000
145	664	निजी	सिंचित दो फसली	0.0763000(हेक्टेयर)	0.0763000
146	713	निजी	सिंचित दो फसली	0.0411000(हेक्टेयर)	0.0411000
147	72	सरकारी	पानी के नीचे	0.0365000(हेक्टेयर)	0.0365000
148	721	निजी	सिंचित दो फसली	0.0798000(हेक्टेयर)	0.0798000
149	722/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0287000(हेक्टेयर)	0.0287000
150	723	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
151	724	निजी	सिंचित दो फसली	0.0304000(हेक्टेयर)	0.0304000

152	725/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
153	725/10	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
154	725/11	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
155	725/12	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
156	725/13	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
157	725/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0312000(हेक्टेयर)	0.0312000
158	725/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
159	725/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
160	725/5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
161	725/6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
162	725/7	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
163	725/8	निजी	सिंचित दो फसली	0.0399000(हेक्टेयर)	0.0399000
164	725/9	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
165	729	निजी	सिंचित दो फसली	0.1416000(हेक्टेयर)	0.1416000
166	730	निजी	सिंचित दो फसली	0.0675000(हेक्टेयर)	0.0675000
167	731	निजी	सिंचित दो फसली	0.2359000(हेक्टेयर)	0.2359000
168	732	निजी	सिंचित दो फसली	0.1652000(हेक्टेयर)	0.1652000
169	75/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
170	751	निजी	सिंचित दो फसली	0.0179000(हेक्टेयर)	0.0179000
171	754	निजी	सिंचित दो फसली	0.1787000(हेक्टेयर)	0.1787000
172	755	निजी	सिंचित दो फसली	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
173	756	निजी	सिंचित दो फसली	0.8717000(हेक्टेयर)	0.8717000
174	757	सरकारी	घास	0.1826000(हेक्टेयर)	0.1826000
175	759/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
176	759/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0149000(हेक्टेयर)	0.0149000
177	76	निजी	सिंचित दो फसली	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000
178	760	निजी	सिंचित दो फसली	0.0791000(हेक्टेयर)	0.0791000
179	761/10	निजी	सिंचित दो फसली	0.0194000(हेक्टेयर)	0.0194000
180	761/11	निजी	सिंचित दो फसली	0.0298000(हेक्टेयर)	0.0298000
181	761/12	निजी	सिंचित दो फसली	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000

182	761/13	निजी	सिंचित दो फसली	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000
183	761/14	निजी	सिंचित दो फसली	0.0967000(हेक्टेयर)	0.0967000
184	761/15	निजी	सिंचित दो फसली	0.1134000(हेक्टेयर)	0.1134000
185	761/16	निजी	सिंचित दो फसली	0.1030000(हेक्टेयर)	0.1030000
186	761/17	निजी	सिंचित दो फसली	0.0317000(हेक्टेयर)	0.0317000
187	761/19	निजी	सिंचित दो फसली	0.0712000(हेक्टेयर)	0.0712000
188	761/20	निजी	सिंचित दो फसली	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
189	761/9	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
190	77/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0676000(हेक्टेयर)	0.0676000
191	77/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
192	77/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
193	77/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
194	77/5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
195	82	निजी	सिंचित दो फसली	0.2957000(हेक्टेयर)	0.2957000
196	83	निजी	सिंचित दो फसली	0.2700000(हेक्टेयर)	0.2700000
197	84/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
198	84/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0559000(हेक्टेयर)	0.0559000
199	84/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
200	85	निजी	सिंचित दो फसली	0.0132000(हेक्टेयर)	0.0132000
201	878	सरकारी	नाला	0.0966000(हेक्टेयर)	0.0966000
202	879	सरकारी	पानी के नीचे	0.0547000(हेक्टेयर)	0.0547000
203	880	निजी	सिंचित दो फसली	0.0258000(हेक्टेयर)	0.0258000
204	881/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
205	881/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
206	881/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
207	881/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
208	881/5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
209	881/6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
210	881/7	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
211	882/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0294000(हेक्टेयर)	0.0294000

212	882/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0360000(हेक्टेयर)	0.0360000
213	89	निजी	सिंचित दो फसली	0.0122000(हेक्टेयर)	0.0122000
214	891/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
215	894	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
216	895	निजी	सिंचित दो फसली	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
217	896	सरकारी	पानी के नीचे	0.7290000(हेक्टेयर)	0.7290000
218	897/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
219	897/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0244000(हेक्टेयर)	0.0244000
220	906	सरकारी	घास	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
221	907	निजी	सिंचित दो फसली	0.0721000(हेक्टेयर)	0.0721000
222	908/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
223	908/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
224	908/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0393000(हेक्टेयर)	0.0393000
225	908/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
226	908/5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0393000(हेक्टेयर)	0.0393000
227	908/6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
228	908/7	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
229	909/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
230	909/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0325000(हेक्टेयर)	0.0325000
231	909/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
232	909/4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
233	909/5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0330000(हेक्टेयर)	0.0330000
234	909/6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
235	909/7	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
236	910	निजी	सिंचित दो फसली	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
237	911	निजी	सिंचित दो फसली	0.0056000(हेक्टेयर)	0.0056000
238	921	सरकारी	पानी के नीचे	0.0273000(हेक्टेयर)	0.0273000
239	922	निजी	सिंचित दो फसली	0.1044000(हेक्टेयर)	0.1044000
240	923	निजी	सिंचित दो फसली	0.1111000(हेक्टेयर)	0.1111000
241	924	सरकारी	घास	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000

242	925	सरकारी	पानी के नीचे	0.0861000(हेक्टेयर)	0.0861000
243	926	निजी	सिंचित दो फसली	0.0195000(हेक्टेयर)	0.0195000
244	932	सरकारी	सड़क	0.1630000(हेक्टेयर)	0.1630000
245	94	निजी	सिंचित दो फसली	0.2225000(हेक्टेयर)	0.2225000
246	95/1	निजी	सिंचित दो फसली	0.1443000(हेक्टेयर)	0.1443000
247	95/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
248	95/3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
249	96	निजी	सिंचित दो फसली	0.0629000(हेक्टेयर)	0.0629000
गांव का नाम: उमरदा					
1	10	निजी	सिंचित दो फसली	0.3746000(हेक्टेयर)	0.3746000
2	11	निजी	सिंचित दो फसली	0.3000000(हेक्टेयर)	0.3000000
3	12	निजी	सिंचित दो फसली	0.1434000(हेक्टेयर)	0.1434000
4	13 /1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0898000(हेक्टेयर)	0.0898000
5	13 /2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0442000(हेक्टेयर)	0.0442000
6	13 /3	निजी	सिंचित दो फसली	0.1443000(हेक्टेयर)	0.1443000
7	13 /4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
8	13 /5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
9	13 /6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
10	13 /7	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
11	13 /8	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
12	150	निजी	सिंचित दो फसली	0.0251000(हेक्टेयर)	0.0251000
13	151	निजी	सिंचित दो फसली	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
14	152	निजी	सिंचित दो फसली	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
15	153	निजी	सिंचित दो फसली	0.0227000(हेक्टेयर)	0.0227000
16	157	निजी	सिंचित दो फसली	0.0431000(हेक्टेयर)	0.0431000
17	16	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
18	160	निजी	सिंचित दो फसली	0.5617000(हेक्टेयर)	0.5617000
19	161	निजी	सिंचित दो फसली	0.5400000(हेक्टेयर)	0.5400000
20	162	निजी	सिंचित दो फसली	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
21	163 /1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0332000(हेक्टेयर)	0.0332000

22	163 /3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
23	163 /4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
24	163 /5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
25	163 /6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
26	163 /7	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
27	163 /8	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
28	163 /9	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
29	163/2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
30	164 /1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
31	164 /2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1714000(हेक्टेयर)	0.1714000
32	165	निजी	सिंचित दो फसली	0.1324000(हेक्टेयर)	0.1324000
33	191	सरकारी	नाला	0.0536000(हेक्टेयर)	0.0536000
34	194	निजी	सिंचित दो फसली	0.1024000(हेक्टेयर)	0.1024000
35	195	निजी	सिंचित दो फसली	0.1227000(हेक्टेयर)	0.1227000
36	196	निजी	सिंचित दो फसली	0.1714000(हेक्टेयर)	0.1714000
37	197	निजी	सिंचित दो फसली	0.3391000(हेक्टेयर)	0.3391000
38	204	सरकारी	रास्ता	0.0976000(हेक्टेयर)	0.0976000
39	229	निजी	सिंचित दो फसली	0.0673000(हेक्टेयर)	0.0673000
40	231	निजी	सिंचित दो फसली	0.3861000(हेक्टेयर)	0.3861000
41	232 /1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0756000(हेक्टेयर)	0.0756000
42	232 /2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1829000(हेक्टेयर)	0.1829000
43	233	निजी	सिंचित दो फसली	0.3770000(हेक्टेयर)	0.3770000
44	234	निजी	सिंचित दो फसली	0.3000000(हेक्टेयर)	0.3000000
45	235 /1	निजी	सिंचित दो फसली	0.2010000(हेक्टेयर)	0.2010000
46	235 /2	निजी	सिंचित दो फसली	0.1750000(हेक्टेयर)	0.1750000
47	236	निजी	सिंचित दो फसली	0.0070000(हेक्टेयर)	0.0070000
48	237	निजी	सिंचित दो फसली	0.0553000(हेक्टेयर)	0.0553000
49	244 /1	निजी	सिंचित दो फसली	0.4617000(हेक्टेयर)	0.4617000
50	244 /2	निजी	सिंचित दो फसली	0.9100000(हेक्टेयर)	0.9100000
51	245	निजी	सिंचित दो फसली	0.0691000(हेक्टेयर)	0.0691000

52	246	निजी	सिंचित दो फसली	0.3600000(हेक्टेयर)	0.3600000
53	248	निजी	सिंचित दो फसली	0.1936000(हेक्टेयर)	0.1936000
54	249	निजी	सिंचित दो फसली	0.2106000(हेक्टेयर)	0.2106000
55	250	निजी	सिंचित दो फसली	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
56	251	निजी	सिंचित दो फसली	0.0237000(हेक्टेयर)	0.0237000
57	266	निजी	सिंचित दो फसली	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
58	268	निजी	सिंचित दो फसली	0.0350000(हेक्टेयर)	0.0350000
59	269	निजी	सिंचित दो फसली	0.2094000(हेक्टेयर)	0.2094000
60	270	निजी	सिंचित दो फसली	0.1720000(हेक्टेयर)	0.1720000
61	273	सरकारी	नहर	0.0468000(हेक्टेयर)	0.0468000
62	274	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
63	3	सरकारी	नाला	0.0761000(हेक्टेयर)	0.0761000
64	4	सरकारी	घास	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
65	5	निजी	सिंचित दो फसली	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
66	6	निजी	सिंचित दो फसली	0.3137000(हेक्टेयर)	0.3137000
67	63	निजी	सिंचित दो फसली	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
68	64	निजी	सिंचित दो फसली	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
69	65	निजी	सिंचित दो फसली	0.1298000(हेक्टेयर)	0.1298000
70	77	निजी	सिंचित दो फसली	0.1324000(हेक्टेयर)	0.1324000
71	78	निजी	सिंचित दो फसली	0.4104000(हेक्टेयर)	0.4104000
72	79	निजी	सिंचित दो फसली	0.2659000(हेक्टेयर)	0.2659000
73	80 /1	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
74	80 /10	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
75	80 /11	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
76	80 /2	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
77	80 /3	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
78	80 /4	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
79	80 /5	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
80	80 /6	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
81	80 /7	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000

82	80 /8	निजी	सिंचित दो फसली	0.0325000(हेक्टेयर)	0.0325000
83	80 /9	निजी	सिंचित दो फसली	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
84	81 /1	निजी	सिंचित दो फसली	0.6400000(हेक्टेयर)	0.6400000
85	9	सरकारी	नहर	0.3600000(हेक्टेयर)	0.3600000
तालुक का नाम: मगरलोड					
गांव का नाम: केवराडीह					
1	160	सरकारी	बड़े झाड़ का जंगल	0.3452000(हेक्टेयर)	0.3452000
2	161	सरकारी	बड़े झाड़ का जंगल	3.3309000(हेक्टेयर)	3.3309000
3	29	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
4	30	निजी	असिंचित	0.3457000(हेक्टेयर)	0.3457000
5	40	निजी	असिंचित	0.1096000(हेक्टेयर)	0.1096000
6	41	निजी	असिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
7	43	निजी	असिंचित	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
8	44	निजी	असिंचित	0.1969000(हेक्टेयर)	0.1969000
9	45	निजी	असिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
10	46	निजी	असिंचित	0.0688000(हेक्टेयर)	0.0688000
11	47	सरकारी	बड़े झाड़ का जंगल	0.0286000(हेक्टेयर)	0.0286000
12	49	निजी	असिंचित	0.2100000(हेक्टेयर)	0.2100000
13	50	निजी	असिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
14	51	निजी	असिंचित	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
15	52	निजी	असिंचित	0.0822000(हेक्टेयर)	0.0822000
16	53	सरकारी	पानी के नीचे	0.1316000(हेक्टेयर)	0.1316000
17	56	सरकारी	घास	0.0940000(हेक्टेयर)	0.0940000
18	57	निजी	असिंचित	0.1691000(हेक्टेयर)	0.1691000
19	58	निजी	असिंचित	0.0087000(हेक्टेयर)	0.0087000
20	59	सरकारी	बड़े झाड़ का जंगल	0.0069000(हेक्टेयर)	0.0069000
21	76	सरकारी	रास्ता	0.0438000(हेक्टेयर)	0.0438000
गांव का नाम: पालवारी					
1	E 17	निजी(बन अधिकार मान्यता पत्र धारी)	असिंचित	0.7065000(हेक्टेयर)	0.7065000
2	G 16	निजी(बन अधिकार	सिंचित	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000

		मान्यता पत्र धारी)			
3	G 17	निजी(बन अधिकार मान्यता पत्र धारी)	असिंचित	0.0113000(हेक्टेयर)	0.0113000
4	H 15	निजी(बन अधिकार मान्यता पत्र धारी)	असिंचित	0.1747000(हेक्टेयर)	0.1747000
5	I 16	निजी(बन अधिकार मान्यता पत्र धारी)	असिंचित	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
6	J 16	निजी	असिंचित	0.4100000(हेक्टेयर)	0.4100000
7	J 17	निजी(बन अधिकार मान्यता पत्र धारी)	सिंचित	0.0187000(हेक्टेयर)	0.0187000
8	L 16	निजी(बन अधिकार मान्यता पत्र धारी)	असिंचित	0.1052000(हेक्टेयर)	0.1052000
9	Q 16	निजी(बन अधिकार मान्यता पत्र धारी)	असिंचित	0.1443000(हेक्टेयर)	0.1443000
10	U 16	निजी(बन अधिकार मान्यता पत्र धारी)	सिंचित	0.3149000(हेक्टेयर)	0.3149000
11	V 16	निजी(बन अधिकार मान्यता पत्र धारी)	असिंचित	0.0729000(हेक्टेयर)	0.0729000
12	Z 14	निजी(बन अधिकार मान्यता पत्र धारी)	सिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
13	Z 16	निजी(बन अधिकार मान्यता पत्र धारी)	असिंचित	0.4400000(हेक्टेयर)	0.4400000
गांव का नाम: राजपुर					
1	1164	सरकारी	बड़े झाड़ का जंगल	4.5376000(हेक्टेयर)	4.5376000
2	1165	निजी	असिंचित पडत	0.1492000(हेक्टेयर)	0.1492000
3	1166	सरकारी	घास	0.4082000(हेक्टेयर)	0.4082000
4	1167 / 1	निजी	असिंचित पडत	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
5	1167 / 2	निजी	असिंचित पडत	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
6	1167 / 3	निजी	असिंचित पडत	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
7	1167 / 4	निजी	असिंचित पडत	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
8	1167 / 5	निजी	असिंचित पडत	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
9	1168 / 1	निजी	असिंचित पडत	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
10	1168 / 2	निजी	असिंचित पडत	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000

11	1168 / 3	निजी	असिंचित पडत	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
12	1168 / 4	निजी	असिंचित पडत	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
13	1168 / 5	निजी	असिंचित पडत	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
14	1168 / 6	निजी	असिंचित पडत	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
15	971	निजी	असिंचित धनहा	0.0065000(हेक्टेयर)	0.0065000
16	972	निजी	असिंचित धनहा	0.3010000(हेक्टेयर)	0.3010000
17	973	निजी	असिंचित धनहा	0.0681000(हेक्टेयर)	0.0681000
18	974	निजी	असिंचित धनहा	0.0040000(हेक्टेयर)	0.0040000
गांव का नाम: सरगी					
1	1332 / 1	निजी	असिंचित	0.3308000(हेक्टेयर)	0.3308000
2	1333	निजी	असिंचित	0.0240000(हेक्टेयर)	0.0240000
3	1334 / 1	निजी	असिंचित	0.1509000(हेक्टेयर)	0.1509000
4	1336	सरकारी	सड़क रास्ता	0.0760000(हेक्टेयर)	0.0760000
5	1342	निजी	असिंचित	0.0269000(हेक्टेयर)	0.0269000
6	1343	निजी	असिंचित	0.2075000(हेक्टेयर)	0.2075000
7	1344	निजी	असिंचित	0.0714000(हेक्टेयर)	0.0714000
8	1345	निजी	असिंचित	0.1159000(हेक्टेयर)	0.1159000
9	1346	निजी	असिंचित	0.2800000(हेक्टेयर)	0.2800000
10	1347	निजी	असिंचित	0.0343000(हेक्टेयर)	0.0343000
11	1351	सरकारी	रास्ता सड़क	0.1226000(हेक्टेयर)	0.1226000
12	1357	सरकारी	रास्ता	0.0643000(हेक्टेयर)	0.0643000
13	1358	निजी	असिंचित	0.1361000(हेक्टेयर)	0.1361000
14	1359 / 2	निजी	असिंचित	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
15	1360 / 1	निजी	असिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
16	1360 / 4	निजी	असिंचित	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
17	1360 / 5	निजी	असिंचित	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000
18	1360 / 6	निजी	असिंचित	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
19	1361	निजी	असिंचित	0.1156000(हेक्टेयर)	0.1156000
20	1362	निजी	असिंचित	0.0669000(हेक्टेयर)	0.0669000
21	1363	निजी	असिंचित	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000

22	1364	निजी	असिंचित	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
23	1365	निजी	असिंचित	0.0133000(हेक्टेयर)	0.0133000
24	1370	निजी	असिंचित	0.0428000(हेक्टेयर)	0.0428000
25	1371 / 1	निजी	असिंचित	0.0671000(हेक्टेयर)	0.0671000
26	1371 / 2	निजी	असिंचित	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
27	1376	निजी	असिंचित	0.0667000(हेक्टेयर)	0.0667000
28	1377	निजी	असिंचित	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
29	1378	निजी	असिंचित	0.3285000(हेक्टेयर)	0.3285000
30	1379	निजी	असिंचित	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
31	1380	निजी	असिंचित	0.0099000(हेक्टेयर)	0.0099000
32	1382	निजी	असिंचित	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
33	1383	निजी	असिंचित	0.3842000(हेक्टेयर)	0.3842000
34	1389	निजी	असिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
35	1390	सरकारी	रास्ता सड़क	0.0098000(हेक्टेयर)	0.0098000
36	1391	निजी	असिंचित	0.0673000(हेक्टेयर)	0.0673000
37	1392	निजी	असिंचित	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
38	1393 / 1	निजी	असिंचित	0.2151000(हेक्टेयर)	0.2151000
39	1393 / 2	निजी	सिंचित	0.3800000(हेक्टेयर)	0.3800000
40	1393 / 3	निजी	असिंचित	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
41	1393 / 4	निजी	सिंचित	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
42	1415	निजी	असिंचित	0.1212000(हेक्टेयर)	0.1212000
43	1416 / 1	निजी	असिंचित	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
44	1416 / 2	निजी	असिंचित	0.0687000(हेक्टेयर)	0.0687000
45	1416 / 3	निजी	असिंचित	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
46	1417	निजी	असिंचित	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
47	1419	निजी	असिंचित	0.0070000(हेक्टेयर)	0.0070000
48	1420 / 1	निजी	असिंचित	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000
49	1420 / 2	निजी	असिंचित	0.1009000(हेक्टेयर)	0.1009000
50	1421	निजी	असिंचित	0.0592000(हेक्टेयर)	0.0592000
51	1422	निजी	असिंचित	0.0041000(हेक्टेयर)	0.0041000

52	1423	निजी	असिंचित	0.1045000(हेक्टेयर)	0.1045000
53	1424	निजी	असिंचित	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
54	1425 / 1	निजी	असिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
55	1425 / 2	निजी	असिंचित	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
56	1425 / 3	निजी	असिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
57	1455 / 2	निजी	असिंचित	0.1422000(हेक्टेयर)	0.1422000
58	1455 / 3	निजी	असिंचित	0.0660000(हेक्टेयर)	0.0660000
59	1455 / 4	निजी	असिंचित	0.4144000(हेक्टेयर)	0.4144000
60	1456	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
61	1457	निजी	असिंचित	0.0297000(हेक्टेयर)	0.0297000
62	1458	निजी	असिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
63	1468	निजी	असिंचित	0.0104000(हेक्टेयर)	0.0104000
64	1469	निजी	असिंचित	0.2040000(हेक्टेयर)	0.2040000
65	1470	निजी	असिंचित	0.0438000(हेक्टेयर)	0.0438000
66	1483	निजी	असिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
67	1484	निजी	असिंचित	0.2504000(हेक्टेयर)	0.2504000
68	1485	निजी	असिंचित	0.3263000(हेक्टेयर)	0.3263000
69	1486	निजी	असिंचित	0.1433000(हेक्टेयर)	0.1433000
70	1487	निजी	असिंचित	0.0606000(हेक्टेयर)	0.0606000
71	1488 / 1	निजी	असिंचित	0.0709000(हेक्टेयर)	0.0709000
72	1488 / 2	निजी	असिंचित	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
73	1489	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
74	1490	निजी	असिंचित	0.3523000(हेक्टेयर)	0.3523000
75	1501	निजी	असिंचित	0.0073000(हेक्टेयर)	0.0073000
76	1502	निजी	असिंचित	0.1333000(हेक्टेयर)	0.1333000
77	1503	निजी	असिंचित	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
78	1504	निजी	असिंचित	0.1131000(हेक्टेयर)	0.1131000
79	1505	निजी	असिंचित	0.2178000(हेक्टेयर)	0.2178000
80	1559	निजी	असिंचित	0.2175000(हेक्टेयर)	0.2175000
81	1560 / 1	निजी	असिंचित	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000

82	1560 / 2	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
83	1560 / 3	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
84	1560 / 4	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
85	1560 / 5	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
86	1560 / 6	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
87	1560 / 7	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
88	1560 / 8	निजी	असिंचित	0.0255000(हेक्टेयर)	0.0255000
89	1561	सरकारी	घास	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
90	1562	सरकारी	बड़े झाड़ के जंगल	1.3744000(हेक्टेयर)	1.3744000
91	1563	सरकारी	बड़े झाड़ का जंगल	0.5417000(हेक्टेयर)	0.5417000
92	1577	सरकारी	बड़े झाड़ का जंगल	1.5256000(हेक्टेयर)	1.5256000
93	1579	सरकारी	बड़े झाड़ का जंगल	0.0007000(हेक्टेयर)	0.0007000
94	1586	सरकारी	बड़े झाड़ के जंगल	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000
95	1587	सरकारी	बड़े झाड़ का जंगल	1.9197000(हेक्टेयर)	1.9197000
96	323	निजी	सिंचित	0.6700000(हेक्टेयर)	0.6700000
97	327	निजी	पडत	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
98	329	निजी	असिंचित	0.0597000(हेक्टेयर)	0.0597000
99	330 / 2	निजी	सिंचित	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
100	331	निजी	असिंचित	0.0604000(हेक्टेयर)	0.0604000
101	332 / 1	निजी	सिंचित	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
102	332 / 2	निजी	सिंचित	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
103	333	निजी	असिंचित	0.2200000(हेक्टेयर)	0.2200000
104	334	निजी	असिंचित	0.2100000(हेक्टेयर)	0.2100000
105	335	निजी	असिंचित	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
106	336	निजी	असिंचित	0.0302000(हेक्टेयर)	0.0302000
107	338	निजी	असिंचित	0.0133000(हेक्टेयर)	0.0133000
108	339 / 1	निजी	असिंचित	0.0410000(हेक्टेयर)	0.0410000
109	339 / 2	निजी	असिंचित	0.0450000(हेक्टेयर)	0.0450000
110	339 / 3	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
111	339 / 4	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000

112	340	निजी	असिंचित	0.2360000(हेक्टेयर)	0.2360000
113	341 / 1	निजी	असिंचित	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
114	341 / 2	निजी	असिंचित	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
115	342 / 1	निजी	पडत	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
116	342 / 2	निजी	पडत	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
117	343	सरकारी	घास	0.0656000(हेक्टेयर)	0.0656000
118	345	निजी	सिंचित	0.0435000(हेक्टेयर)	0.0435000
119	348	सरकारी	घास	0.0902000(हेक्टेयर)	0.0902000
120	349	निजी	असिंचित	0.0687000(हेक्टेयर)	0.0687000
121	351	निजी	पडत	0.0197000(हेक्टेयर)	0.0197000
122	352	निजी	पडत	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
123	353	निजी	पडत	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
124	354	निजी	पडत	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
125	355	सरकारी	पानी के नीचे नाला	0.7156000(हेक्टेयर)	0.7156000
126	423	निजी	सिंचित	0.6395000(हेक्टेयर)	0.6395000
127	424	निजी	असिंचित	0.1743000(हेक्टेयर)	0.1743000
128	426	निजी	असिंचित	0.1036000(हेक्टेयर)	0.1036000
129	431 / 3	निजी	असिंचित	0.1536000(हेक्टेयर)	0.1536000
130	432	निजी	असिंचित	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
131	434 / 1	निजी	असिंचित	0.2700000(हेक्टेयर)	0.2700000
132	434 / 2	निजी	असिंचित	0.3020000(हेक्टेयर)	0.3020000
133	435	निजी	सिंचित	0.1216000(हेक्टेयर)	0.1216000
134	436 / 2	निजी	सिंचित	0.1350000(हेक्टेयर)	0.1350000
135	436/1	निजी	सिंचित	0.0391000(हेक्टेयर)	0.0391000
136	437 / 1	निजी	असिंचित	0.2800000(हेक्टेयर)	0.2800000
137	437 / 2	निजी	असिंचित	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
138	437 / 3	निजी	असिंचित	0.0606000(हेक्टेयर)	0.0606000
139	438	निजी	असिंचित	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
140	439	निजी	असिंचित	0.0513000(हेक्टेयर)	0.0513000
141	443	निजी	असिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000

142	445	निजी	असिंचित	0.0797000(हेक्टेयर)	0.0797000
143	446 / 1	निजी	असिंचित	0.0640000(हेक्टेयर)	0.0640000
144	446 / 2	निजी	असिंचित	0.0770000(हेक्टेयर)	0.0770000
145	447	निजी	असिंचित	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
146	448 /2	निजी	सिंचित	0.0359000(हेक्टेयर)	0.0359000
147	449	निजी	असिंचित	0.0264000(हेक्टेयर)	0.0264000
148	738	निजी	असिंचित	0.2669000(हेक्टेयर)	0.2669000
149	739	सरकारी	रास्ता	0.3469000(हेक्टेयर)	0.3469000
150	740	निजी	असिंचित	0.5425000(हेक्टेयर)	0.5425000
151	741	निजी	असिंचित	0.1485000(हेक्टेयर)	0.1485000
152	742	निजी	असिंचित	0.0123000(हेक्टेयर)	0.0123000
153	745	निजी	असिंचित	0.0356000(हेक्टेयर)	0.0356000
कुल				235.5915	235.5915

[फा. सं. PD/DMT/Rai-Vish/LA/3A2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th January, 2020

S.O. 545(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed in the stretch of land from Km 9.38 to Km 62.35 (Office of the Sub Divisional Officer(Rav.) Kurud) in the district of DHAMTARI in the state of CHHATTISGARH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (Rev.) & Competent Authority Land Acquisition Kurud in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Newly Proposed in the stretch of land from Newly Proposed (Raipur-visakhapatnam) (Office of the Sub Divisional Officer(Rev.) Kurud) in the district of DHAMTARI in the state of CHHATTISGARH

State: CHHATTISGARH District: DHAMTARI					
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kurud					
Village: Bangar					
1	263	Government	Under water	0.1300000(Hectare)	0.1300000
2	269	Private	Irrigated Double Crop	0.1550000(Hectare)	0.1550000
3	271	Private	Irrigated Double Crop	0.5200000(Hectare)	0.5200000
4	274	Private	Irrigated Double Crop	0.4300000(Hectare)	0.4300000
5	275	Private	Irrigated Double Crop	0.0707000(Hectare)	0.0707000
6	276	Government	Grass (Graveyard)	0.0100000(Hectare)	0.0100000
7	277	Private	Irrigated Double Crop	0.1900000(Hectare)	0.1900000
8	278	Private	Irrigated Double Crop	0.0863000(Hectare)	0.0863000
9	285	Private	Irrigated Double Crop	0.0537000(Hectare)	0.0537000
10	287	Private	Irrigated Double Crop	0.0891000(Hectare)	0.0891000
11	288	Private	Irrigated Double Crop	0.1929000(Hectare)	0.1929000
12	290	Government	Grass (Pasturage)	0.6500000(Hectare)	0.6500000
13	291	Private	Irrigated Double Crop	0.1400000(Hectare)	0.1400000
14	292	Private	Irrigated Double Crop	0.0100000(Hectare)	0.0100000
15	294	Government	Rasta	0.1033000(Hectare)	0.1033000
16	295	Government	Grass (Pasturage)	0.1328000(Hectare)	0.1328000
17	296	Private	Irrigated Double Crop	0.2740000(Hectare)	0.2740000
18	297	Private	Irrigated Double Crop	0.1206000(Hectare)	0.1206000
19	298	Private	Irrigated Double Crop	0.0220000(Hectare)	0.0220000
20	299	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
21	311 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.1397000(Hectare)	0.1397000
22	312	Private	Irrigated Single Crop	0.0340000(Hectare)	0.0340000
23	313	Private	Irrigated Double Crop	0.3500000(Hectare)	0.3500000
24	314 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
25	314 / 3	Private	Irrigated Double Crop	0.0878000(Hectare)	0.0878000
26	593 / 1	Private	Irrigated Single Crop	0.1740000(Hectare)	0.1740000
27	593 / 2	Private	Irrigated Single Crop	0.0123000(Hectare)	0.0123000
28	593 / 3	Private	Irrigated Single Crop	0.0369000(Hectare)	0.0369000
29	593 / 4	Private	Irrigated Double Crop	0.0900000(Hectare)	0.0900000
30	594	Private	Irrigated Single Crop	0.0700000(Hectare)	0.0700000
31	595	Private	Irrigated Single Crop	0.0700000(Hectare)	0.0700000

32	596	Private	Irrigated Single Crop	0.2051000(Hectare)	0.2051000
33	597	Private	Irrigated Single Crop	0.0452000(Hectare)	0.0452000
34	598	Private	Irrigated Single Crop	0.0107000(Hectare)	0.0107000
35	604 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.1526000(Hectare)	0.1526000
36	605	Private	Irrigated Double Crop	0.4949000(Hectare)	0.4949000
37	606	Private	Irrigated Double Crop	0.6782000(Hectare)	0.6782000
38	608 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.1147000(Hectare)	0.1147000
39	608 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.1100000(Hectare)	0.1100000
40	612	Government	Under water	0.1227000(Hectare)	0.1227000
41	740	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
42	741	Private	Irrigated Double Crop	0.2087000(Hectare)	0.2087000
43	742	Private	Irrigated Double Crop	0.5967000(Hectare)	0.5967000
44	743	Private	Irrigated Double Crop	0.2885000(Hectare)	0.2885000
45	744	Private	Irrigated Double Crop	0.0543000(Hectare)	0.0543000
46	750 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.0127000(Hectare)	0.0127000
47	751	Private	Irrigated Double Crop	0.5400000(Hectare)	0.5400000
48	752	Private	Irrigated Single Crop	0.1051000(Hectare)	0.1051000
49	753	Private	Irrigated Double Crop	0.1200000(Hectare)	0.1200000
50	754	Private	Irrigated Double Crop	0.2100000(Hectare)	0.2100000
51	755	Private	Irrigated Double Crop	0.3826000(Hectare)	0.3826000
52	757	Private	Irrigated Single Crop	0.2200000(Hectare)	0.2200000
53	759	Private	Irrigated Double Crop	0.0874000(Hectare)	0.0874000
54	760	Private	Irrigated Double Crop	0.5992000(Hectare)	0.5992000
55	761 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.0243000(Hectare)	0.0243000
56	762 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.0396000(Hectare)	0.0396000
57	781	Private	Irrigated Double Crop	0.4997000(Hectare)	0.4997000
58	784	Private	Irrigated Double Crop	0.6000000(Hectare)	0.6000000
Village: Bharda					
1	299	Government	underwater	0.0531000(Hectare)	0.0531000
2	302	Government	Agriculture Land (Seva Bhoomi)	1.4000000(Hectare)	1.4000000
3	303	Government	Grass	2.8000000(Hectare)	2.8000000
Village: Bharda					
1	1 / 2	Private	Irrigated	0.2584000(Hectare)	0.2584000
2	10	Private	Agriculture Irrigated	0.5271000(Hectare)	0.5271000
3	11	Private	Irrigated	0.5310000(Hectare)	0.5310000
4	17	Private	Irrigated	0.0727000(Hectare)	0.0727000
5	2 / 1	Private	Irrigated	0.1850000(Hectare)	0.1850000
6	2 / 2	Private	Irrigated	0.2000000(Hectare)	0.2000000
7	291	Government	pasturage	0.2030000(Hectare)	0.2030000
8	292	Government	Grass	0.0700000(Hectare)	0.0700000

9	293	Government	pasturage	0.1716000(Hectare)	0.1716000
10	296	Private	Irrigated	0.0570000(Hectare)	0.0570000
11	300	Private	Irrigated	0.2461000(Hectare)	0.2461000
12	301	Private	Irrigated	0.1346000(Hectare)	0.1346000
13	302	Private	Irrigated	0.1944000(Hectare)	0.1944000
14	303	Private	Irrigated	0.1409000(Hectare)	0.1409000
15	304	Private	Irrigated	0.0800000(Hectare)	0.0800000
16	305	Private	Irrigated	0.1202000(Hectare)	0.1202000
17	310 /2	Private	Irrigated	0.4087000(Hectare)	0.4087000
18	310 /3	Private	Irrigated	0.1700000(Hectare)	0.1700000
19	311 /1	Private	Irrigated	0.2300000(Hectare)	0.2300000
20	312	Private	Irrigated	0.7700000(Hectare)	0.7700000
21	40	Government	Grass	0.2353000(Hectare)	0.2353000
22	42 / 6	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
23	42 /1	Private	Agriculture Land	0.1800000(Hectare)	0.1800000
24	42 /2	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
25	42 /3	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
26	42 /4	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
27	42 /5	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
28	42 /7	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
29	42 /8	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
30	42 /9	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
31	42/10	Private	Agriculture	0.0500000(Hectare)	0.0500000
32	47	Private	Irrigated	0.0416000(Hectare)	0.0416000
33	48 /10	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
34	48 /2	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
35	48 /3	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
36	48 /4	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
37	48 /5	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
38	48 /6	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
39	48 /8	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
40	48 /9	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
41	48/7	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
42	5 /10	Private	Agriculture Land	0.0067000(Hectare)	0.0067000
43	5 /11	Private	Agriculture Land	0.0082000(Hectare)	0.0082000
44	5 /13	Private	Agriculture Land	0.0097000(Hectare)	0.0097000
45	5 /14	Private	Agriculture Land	0.0100000(Hectare)	0.0100000
46	5 /2	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
47	5 /3	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
48	5 /4	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
49	5 /5	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000

50	5 /6	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
51	5 /7	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
52	5 /8	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
53	5 /9	Private	Agriculture Land	0.0500000(Hectare)	0.0500000
54	5/12	Private	Agriculture	0.0105000(Hectare)	0.0105000
55	50 /1	Private	Irrigated	0.0706000(Hectare)	0.0706000
56	54	Private	Irrigated	0.1860000(Hectare)	0.1860000
57	55	Private	Irrigated	0.5600000(Hectare)	0.5600000
58	56	Government	Canel	0.2102000(Hectare)	0.2102000
59	57	Private	Irrigated	0.1212000(Hectare)	0.1212000
60	6 /2	Private	Irrigated	0.0798000(Hectare)	0.0798000
61	6 /3	Private	Irrigated	0.3147000(Hectare)	0.3147000
62	61	Government	Grass	0.1120000(Hectare)	0.1120000
63	8	Private	Irrigated	0.2989000(Hectare)	0.2989000
64	9	Private	Irrigated	0.0099000(Hectare)	0.0099000
65	94 /1	Government	Grass	1.2800000(Hectare)	1.2800000
Village: Chiwri					
1	1086 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
2	1222	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0862000(Hectare)	0.0862000
3	1086 / 1	Government	Grazing	0.2433000(Hectare)	0.2433000
4	1086 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0063000(Hectare)	0.0063000
5	1165	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1445000(Hectare)	0.1445000
6	1166	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1700000(Hectare)	0.1700000
7	1167	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1200000(Hectare)	0.1200000
8	1168	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1404000(Hectare)	0.1404000
9	1169	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0733000(Hectare)	0.0733000
10	1170	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.5700000(Hectare)	0.5700000
11	1171	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0309000(Hectare)	0.0309000
12	1175	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0381000(Hectare)	0.0381000
13	1177	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1309000(Hectare)	0.1309000
14	1178	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1300000(Hectare)	0.1300000
15	1179	Private	Dhanaha Irrigated Dauble	0.1285000(Hectare)	0.1285000

			Crop		
16	1194	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2276000(Hectare)	0.2276000
17	1206	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2111000(Hectare)	0.2111000
18	1207 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0378000(Hectare)	0.0378000
19	1209	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2338000(Hectare)	0.2338000
20	1210 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1941000(Hectare)	0.1941000
21	1211	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.3079000(Hectare)	0.3079000
22	1212	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.4900000(Hectare)	0.4900000
23	1213 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0212000(Hectare)	0.0212000
24	1213 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0582000(Hectare)	0.0582000
25	1214 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1260000(Hectare)	0.1260000
26	1214 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2234000(Hectare)	0.2234000
27	1215	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.4845000(Hectare)	0.4845000
28	1216	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
29	1217	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
30	1218	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0192000(Hectare)	0.0192000
31	1219	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2000000(Hectare)	0.2000000
32	1223	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1100000(Hectare)	0.1100000
33	1224	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1403000(Hectare)	0.1403000
34	1225	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1300000(Hectare)	0.1300000
35	1226	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0834000(Hectare)	0.0834000
36	1227	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0239000(Hectare)	0.0239000
37	1251	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
38	130 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0280000(Hectare)	0.0280000
39	130 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0467000(Hectare)	0.0467000

40	130 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0450000(Hectare)	0.0450000
41	130 / 4	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
42	1304	Government	Nala	0.0150000(Hectare)	0.0150000
43	1305	Government	Grazing	0.1434000(Hectare)	0.1434000
44	1306	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1961000(Hectare)	0.1961000
45	1308	Government	Pond	0.0819000(Hectare)	0.0819000
46	131	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0378000(Hectare)	0.0378000
47	1319	Government	Nala	0.0178000(Hectare)	0.0178000
48	132	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0100000(Hectare)	0.0100000
49	133	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0321000(Hectare)	0.0321000
50	152	Government	canal	0.1004000(Hectare)	0.1004000
51	153	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0573000(Hectare)	0.0573000
52	154	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0537000(Hectare)	0.0537000
53	155	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
54	156	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
55	157	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
56	840	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1959000(Hectare)	0.1959000
57	841	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2796000(Hectare)	0.2796000
58	842 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
59	842 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1850000(Hectare)	0.1850000
60	842 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
61	842 / 4	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
62	842 / 5	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
63	842 / 6	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
64	842 / 7	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
65	856 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2734000(Hectare)	0.2734000
66	856 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble	0.1706000(Hectare)	0.1706000

			Crop		
67	856 / 5	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2317000(Hectare)	0.2317000
68	856 / 6	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2534000(Hectare)	0.2534000
69	857 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1248000(Hectare)	0.1248000
70	857 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2301000(Hectare)	0.2301000
71	867	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0232000(Hectare)	0.0232000
72	868	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1600000(Hectare)	0.1600000
73	869	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.5174000(Hectare)	0.5174000
74	872	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1764000(Hectare)	0.1764000
75	873	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2912000(Hectare)	0.2912000
76	874	Government	Grazing	0.2505000(Hectare)	0.2505000
77	875	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
78	876 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
79	876 / 4	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
80	876 / 6	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
81	876 / 7	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0360000(Hectare)	0.0360000
82	876 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
83	876 / 5	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
84	876/2	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
85	877	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0420000(Hectare)	0.0420000
86	878	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
87	882	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0812000(Hectare)	0.0812000
88	883	Government	Grazing	0.0950000(Hectare)	0.0950000
89	892	Government	Charai	0.0421000(Hectare)	0.0421000
90	901	Government	Road	0.1872000(Hectare)	0.1872000
91	903	Government	Road	0.1358000(Hectare)	0.1358000
92	939	Government	Grazing	0.1267000(Hectare)	0.1267000
93	975 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble	1.1700000(Hectare)	1.1700000

			Crop		
94	975 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.5285000(Hectare)	0.5285000
95	976	Government	Nala	0.1728000(Hectare)	0.1728000
96	981	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0100000(Hectare)	0.0100000
Village: Dhetha					
1	1	Government	Nala	0.2000000(Hectare)	0.2000000
2	149 / 1	Private	Irrigated	0.0220000(Hectare)	0.0220000
3	151 / 1	Private	Irrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
4	152	Private	Irrigated	0.1180000(Hectare)	0.1180000
5	162 / 1	Private	Irrigated	0.1170000(Hectare)	0.1170000
6	163	Private	Irrigated	0.0700000(Hectare)	0.0700000
7	164	Private	Irrigated	0.0480000(Hectare)	0.0480000
8	165	Private	Irrigated	0.0210000(Hectare)	0.0210000
9	172	Private	Irrigated	0.2750000(Hectare)	0.2750000
10	173	Private	Irrigated	0.1110000(Hectare)	0.1110000
11	174	Private	Irrigated	0.5080000(Hectare)	0.5080000
12	175	Private	Irrigated	0.3270000(Hectare)	0.3270000
13	176	Private	Irrigated	0.1370000(Hectare)	0.1370000
14	177	Private	Irrigated	0.0090000(Hectare)	0.0090000
15	178	Private	Irrigated	0.0200000(Hectare)	0.0200000
16	183	Private	Irrigated	0.0420000(Hectare)	0.0420000
17	186 / 2	Private	Irrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
18	188	Private	Irrigated	0.2100000(Hectare)	0.2100000
19	191	Private	Irrigated	0.0860000(Hectare)	0.0860000
20	192	Private	Irrigated	0.1600000(Hectare)	0.1600000
21	193 / 1	Private	Irrigated	0.1770000(Hectare)	0.1770000
22	193 / 2	Private	Irrigated	0.2180000(Hectare)	0.2180000
23	193 / 3	Private	Irrigated	0.1240000(Hectare)	0.1240000
24	198	Private	Irrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
25	199	Private	Irrigated	0.0360000(Hectare)	0.0360000
26	201	Private	Irrigated	0.0600000(Hectare)	0.0600000
27	202	Private	Irrigated	0.0420000(Hectare)	0.0420000
28	203 / 1	Private	Irrigated	0.1010000(Hectare)	0.1010000
29	203 / 2	Private	Irrigated	0.1600000(Hectare)	0.1600000
30	203 / 3	Private	Irrigated	0.3800000(Hectare)	0.3800000
31	204 / 1	Private	Irrigated	0.5550000(Hectare)	0.5550000
32	204 / 2	Private	Irrigated	0.3680000(Hectare)	0.3680000
33	206	Private	Irrigated	0.0140000(Hectare)	0.0140000
34	218	Private	Irrigated	0.0980000(Hectare)	0.0980000

35	219 / 2	Private	Irrigated	0.2430000(Hectare)	0.2430000
36	220 / 1	Private	Irrigated	0.1320000(Hectare)	0.1320000
37	220 / 2	Private	Irrigated	0.3540000(Hectare)	0.3540000
38	221	Private	Irrigated	0.1400000(Hectare)	0.1400000
39	222	Private	Irrigated	0.2830000(Hectare)	0.2830000
40	223	Government	Road	0.1000000(Hectare)	0.1000000
41	329	Private	Irrigated	0.1280000(Hectare)	0.1280000
42	331	Private	Irrigated	0.3890000(Hectare)	0.3890000
43	332	Private	Irrigated	0.2370000(Hectare)	0.2370000
44	333	Private	Irrigated	0.1590000(Hectare)	0.1590000
45	334	Private	Irrigated	0.0690000(Hectare)	0.0690000
46	336	Private	Irrigated	0.0230000(Hectare)	0.0230000
47	337	Private	Irrigated	0.0190000(Hectare)	0.0190000
48	342	Government	Grass	0.0260000(Hectare)	0.0260000
Village: Fusera					
1	490	Government	Canal Non Irrigated	0.0610000(Hectare)	0.0610000
2	491	Private	Irrigated	1.3500000(Hectare)	1.3500000
3	520	Government	Irrigated	0.4300000(Hectare)	0.4300000
4	521	Private	Irrigated	0.0600000(Hectare)	0.0600000
5	522	Private	Irrigated	0.2900000(Hectare)	0.2900000
6	523	Private	Irrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
7	524	Private	Irrigated	0.1430000(Hectare)	0.1430000
8	525	Private	Irrigated	0.5040000(Hectare)	0.5040000
9	526	Private	Irrigated	0.1890000(Hectare)	0.1890000
10	527	Private	Irrigated	0.1300000(Hectare)	0.1300000
11	553	Government	non agriculture under water	0.1140000(Hectare)	0.1140000
12	70	Private	Irrigated	0.0740000(Hectare)	0.0740000
13	71	Private	Irrigated	0.1960000(Hectare)	0.1960000
Village: Joratarai					
1	194 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0229000(Hectare)	0.0229000
2	195 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0191000(Hectare)	0.0191000
3	195 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1100000(Hectare)	0.1100000
4	195 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0644000(Hectare)	0.0644000
5	197	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.9988000(Hectare)	0.9988000
6	223 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0376000(Hectare)	0.0376000
7	224 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.3150000(Hectare)	0.3150000

8	224 /2	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0168000(Hectare)	0.0168000
9	224 /3	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.3469000(Hectare)	0.3469000
10	225 /1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0344000(Hectare)	0.0344000
11	228 /1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1161000(Hectare)	0.1161000
12	228 /2	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1000000(Hectare)	0.1000000
13	229	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0061000(Hectare)	0.0061000
14	230	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1234000(Hectare)	0.1234000
15	231	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1700000(Hectare)	0.1700000
16	232	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1807000(Hectare)	0.1807000
17	234	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0347000(Hectare)	0.0347000
18	764	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0478000(Hectare)	0.0478000
19	766 /1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1050000(Hectare)	0.1050000
20	766 /2	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1000000(Hectare)	0.1000000
21	766 /3	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0060000(Hectare)	0.0060000
22	766 /5	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1130000(Hectare)	0.1130000
23	766 /6	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0363000(Hectare)	0.0363000
24	767	Government	Road	0.0099000(Hectare)	0.0099000
25	768 /1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0450000(Hectare)	0.0450000
26	768 /2	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0313000(Hectare)	0.0313000
27	768 /3	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1600000(Hectare)	0.1600000
28	768 /4	Private	Dhanaha Irrigated double crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
29	769	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2762000(Hectare)	0.2762000
30	770	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2223000(Hectare)	0.2223000
31	771	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2743000(Hectare)	0.2743000
32	772	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0084000(Hectare)	0.0084000

33	773	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0743000(Hectare)	0.0743000
34	774	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1784000(Hectare)	0.1784000
35	775	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1500000(Hectare)	0.1500000
36	776	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2100000(Hectare)	0.2100000
37	777	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0064000(Hectare)	0.0064000
38	778	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0900000(Hectare)	0.0900000
39	794	Government	Road	0.2545000(Hectare)	0.2545000
40	803	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.7890000(Hectare)	0.7890000
41	804	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0329000(Hectare)	0.0329000
42	805	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2886000(Hectare)	0.2886000
43	807	Private	Dhanaha Irrigated double crop	0.0350000(Hectare)	0.0350000
44	808	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
45	809	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1600000(Hectare)	0.1600000
46	810	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0900000(Hectare)	0.0900000
47	811	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0175000(Hectare)	0.0175000
48	812	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2100000(Hectare)	0.2100000
49	813	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1308000(Hectare)	0.1308000
50	814	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
51	815	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0645000(Hectare)	0.0645000
52	817 /1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0215000(Hectare)	0.0215000
53	838 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1900000(Hectare)	0.1900000
54	838 /2	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0757000(Hectare)	0.0757000
55	839	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
56	840	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0354000(Hectare)	0.0354000
57	841	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0800000(Hectare)	0.0800000

58	842 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
59	842 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2308000(Hectare)	0.2308000
60	842 / 4	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
61	842 / 5	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
62	842 / 6	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
63	842 / 7	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0234000(Hectare)	0.0234000
64	843	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
65	878	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1102000(Hectare)	0.1102000
66	879	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1400000(Hectare)	0.1400000
67	880	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1500000(Hectare)	0.1500000
68	881	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.1400000(Hectare)	0.1400000
69	882	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
70	883	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2800000(Hectare)	0.2800000
71	884	Government	Grass	0.0200000(Hectare)	0.0200000
72	885	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2044000(Hectare)	0.2044000
73	890 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0660000(Hectare)	0.0660000
74	890 / 4	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0391000(Hectare)	0.0391000
75	953	Government	Canel	0.1241000(Hectare)	0.1241000
Village: Kamraude					
1	120	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0344000(Hectare)	0.0344000
2	122	Private	Irrigated Dauble Crop	0.3187000(Hectare)	0.3187000
3	123	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2801000(Hectare)	0.2801000
4	124	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2415000(Hectare)	0.2415000
5	132	Private	Irrigated Dauble Crop	0.3493000(Hectare)	0.3493000
6	133	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2801000(Hectare)	0.2801000
7	134	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0780000(Hectare)	0.0780000
8	135	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0699000(Hectare)	0.0699000
9	140	Government	Nahar Nali	0.0600000(Hectare)	0.0600000
10	141	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2194000(Hectare)	0.2194000
11	142	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2200000(Hectare)	0.2200000

12	203	Private	Irrigated Dauble Crop	0.3013000(Hectare)	0.3013000
13	204	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1536000(Hectare)	0.1536000
14	205	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1649000(Hectare)	0.1649000
15	206	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0487000(Hectare)	0.0487000
16	207 / 1	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1300000(Hectare)	0.1300000
17	207 / 2	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1700000(Hectare)	0.1700000
18	208	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0988000(Hectare)	0.0988000
19	209	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1652000(Hectare)	0.1652000
20	210	Private	Irrigated Dauble Crop	0.4796000(Hectare)	0.4796000
21	240	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0959000(Hectare)	0.0959000
22	241	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1500000(Hectare)	0.1500000
23	242	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1100000(Hectare)	0.1100000
24	243	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0219000(Hectare)	0.0219000
25	244	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1370000(Hectare)	0.1370000
26	245	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0071000(Hectare)	0.0071000
27	246	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0104000(Hectare)	0.0104000
28	247	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0339000(Hectare)	0.0339000
29	248	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2700000(Hectare)	0.2700000
30	249	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1200000(Hectare)	0.1200000
31	250	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1400000(Hectare)	0.1400000
32	251	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1343000(Hectare)	0.1343000
33	255	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0274000(Hectare)	0.0274000
34	256	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1944000(Hectare)	0.1944000
35	263	Private	Irrigated Dauble Crop	0.3477000(Hectare)	0.3477000
36	311	Government	grass	2.0000000(Hectare)	2.0000000
37	445	Government	Grass	0.4921000(Hectare)	0.4921000
38	451	Private	Irrigated Dauble Crop	0.3500000(Hectare)	0.3500000
39	452	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0326000(Hectare)	0.0326000
40	453	Government	Grass	0.2401000(Hectare)	0.2401000
41	454	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2900000(Hectare)	0.2900000
42	455	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1166000(Hectare)	0.1166000
43	456	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0885000(Hectare)	0.0885000
44	458 / 1	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1475000(Hectare)	0.1475000
45	458 / 2	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0563000(Hectare)	0.0563000
46	459	Government	nala	0.1306000(Hectare)	0.1306000
47	474	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0650000(Hectare)	0.0650000
48	475	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0318000(Hectare)	0.0318000
Village: Karga					
1	1018	Private	Irrigated	0.2300000(Hectare)	0.2300000
2	102	Private	Irrigated	0.0080000(Hectare)	0.0080000
3	1028 / 1	Private	Irrigated	0.2100000(Hectare)	0.2100000

4	1029	Private	Irrigated	0.2300000(Hectare)	0.2300000
5	103	Private	Irrigated	0.1200000(Hectare)	0.1200000
6	1030	Private	Irrigated	0.2515000(Hectare)	0.2515000
7	104	Private	Irrigated	0.0865000(Hectare)	0.0865000
8	1066	Private	Irrigated	0.2675000(Hectare)	0.2675000
9	1067 / 1	Private	Irrigated	0.1585000(Hectare)	0.1585000
10	1068	Private	Irrigated	0.2400000(Hectare)	0.2400000
11	1071	Private	Irrigated	0.1847000(Hectare)	0.1847000
12	1072	Private	Irrigated	0.0497000(Hectare)	0.0497000
13	1076	Private	Irrigated	0.0185000(Hectare)	0.0185000
14	1079	Private	Irrigated	0.0492000(Hectare)	0.0492000
15	1080	Private	Irrigated	0.1500000(Hectare)	0.1500000
16	1081	Private	Irrigated	0.2566000(Hectare)	0.2566000
17	1082	Private	Irrigated	0.2996000(Hectare)	0.2996000
18	1085	Private	Irrigated	0.0346000(Hectare)	0.0346000
19	1086	Private	Irrigated	0.0870000(Hectare)	0.0870000
20	1087	Private	Irrigated	0.1060000(Hectare)	0.1060000
21	1123	Private	Irrigated	0.0774000(Hectare)	0.0774000
22	1124	Private	Irrigated	0.1000000(Hectare)	0.1000000
23	1125	Private	Irrigated	0.0472000(Hectare)	0.0472000
24	1126 / 1	Private	Irrigated	0.1322000(Hectare)	0.1322000
25	1126 / 2	Private	Irrigated	0.1358000(Hectare)	0.1358000
26	1127	Private	Irrigated	0.1200000(Hectare)	0.1200000
27	1128 / 1	Private	Irrigated	0.2120000(Hectare)	0.2120000
28	1129 / 1 - 2	Private	Irrigated	0.0396000(Hectare)	0.0396000
29	1130	Private	Irrigated	0.0472000(Hectare)	0.0472000
30	1135	Private	Irrigated	0.2223000(Hectare)	0.2223000
31	1136	Private	Irrigated	0.0232000(Hectare)	0.0232000
32	1137	Private	Irrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
33	1138	Private	Irrigated	0.2100000(Hectare)	0.2100000
34	1139	Private	Irrigated	0.4440000(Hectare)	0.4440000
35	1140	Private	Irrigated	0.0177000(Hectare)	0.0177000
36	1141	Private	Irrigated	0.2986000(Hectare)	0.2986000
37	1153	Government	Canal	0.2000000(Hectare)	0.2000000
38	244	Government	Canal	0.0105000(Hectare)	0.0105000
39	264	Government	Grass	0.4939000(Hectare)	0.4939000
40	338 / 1	Private	Irrigated	0.0751000(Hectare)	0.0751000
41	340 / 1	Private	Irrigated	0.0892000(Hectare)	0.0892000
42	340 / 3	Private	Irrigated	0.0680000(Hectare)	0.0680000
43	341	Private	Irrigated	0.2800000(Hectare)	0.2800000
44	342	Private	Irrigated	0.2456000(Hectare)	0.2456000

45	344 / 1	Private	Irrigated	0.0691000(Hectare)	0.0691000
46	344/ 2	Private	Irrigated	0.3725000(Hectare)	0.3725000
47	345	Private	Irrigated	0.3602000(Hectare)	0.3602000
48	346	Private	Irrigated	0.4717000(Hectare)	0.4717000
49	351	Private	Irrigated	0.0600000(Hectare)	0.0600000
50	352	Private	Irrigated	0.2852000(Hectare)	0.2852000
51	353	Private	Irrigated	0.2962000(Hectare)	0.2962000
52	419	Government	Canel	0.0397000(Hectare)	0.0397000
53	423	Private	Irrigated	0.2363000(Hectare)	0.2363000
54	424	Private	Irrigated	0.0800000(Hectare)	0.0800000
55	425	Private	Irrigated	0.2138000(Hectare)	0.2138000
56	426	Private	Irrigated	0.2000000(Hectare)	0.2000000
57	427	Private	Irrigated	0.2600000(Hectare)	0.2600000
58	428	Private	Irrigated	0.1684000(Hectare)	0.1684000
59	432	Private	Irrigated	0.0221000(Hectare)	0.0221000
60	475	Government	Canal	0.0353000(Hectare)	0.0353000
61	478	Private	Irrigated	0.1125000(Hectare)	0.1125000
62	479	Private	Irrigated	0.0244000(Hectare)	0.0244000
63	480	Private	Irrigated	0.1700000(Hectare)	0.1700000
64	481	Private	Irrigated	0.1590000(Hectare)	0.1590000
65	482	Private	Irrigated	0.3964000(Hectare)	0.3964000
66	602	Private	Irrigated	0.3105000(Hectare)	0.3105000
67	603 / 1	Private	Irrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
68	603 / 2	Private	Irrigated	0.0340000(Hectare)	0.0340000
69	603 / 3	Private	Irrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
70	62	Private	Irrigated	0.0063000(Hectare)	0.0063000
71	629	Private	Irrigated	0.0156000(Hectare)	0.0156000
72	630	Private	Irrigated	0.1226000(Hectare)	0.1226000
73	631 / 1 , 631 / 2	Private	Irrigated	0.3000000(Hectare)	0.3000000
74	631 / 3	Private	Irrigated	0.0700000(Hectare)	0.0700000
75	633	Private	Irrigated	0.0257000(Hectare)	0.0257000
76	635	Private	Irrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
77	636	Private	Irrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
78	637	Private	Irrigated	0.1000000(Hectare)	0.1000000
79	638	Private	Irrigated	0.1292000(Hectare)	0.1292000
80	639	Private	Irrigated	0.0543000(Hectare)	0.0543000
81	642	Private	Irrigated	0.1120000(Hectare)	0.1120000
82	643	Private	Irrigated	0.4935000(Hectare)	0.4935000
83	648	Private	Irrigated	0.5300000(Hectare)	0.5300000
84	649	Government	Nahar	0.1507000(Hectare)	0.1507000

85	650	Private	Irrigated	0.1312000(Hectare)	0.1312000
86	79	Private	Irrigated	0.0360000(Hectare)	0.0360000
87	819	Private	Irrigated	0.0578000(Hectare)	0.0578000
88	820 / 1	Private	Irrigated	0.0600000(Hectare)	0.0600000
89	820 / 2	Private	Irrigated	0.1400000(Hectare)	0.1400000
90	821	Private	Irrigated	0.3555000(Hectare)	0.3555000
91	822	Private	Irrigated	0.1141000(Hectare)	0.1141000
92	823	Private	Irrigated	0.1790000(Hectare)	0.1790000
93	831	Government	Rasta	0.1518000(Hectare)	0.1518000
94	86	Private	Irrigated	0.0581000(Hectare)	0.0581000
95	860 / 2	Private	Irrigated	0.1457000(Hectare)	0.1457000
96	861	Private	Irrigated	0.1500000(Hectare)	0.1500000
97	862	Private	Irrigated	0.1000000(Hectare)	0.1000000
98	863	Private	Irrigated	0.0424000(Hectare)	0.0424000
99	864	Private	Irrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
100	865	Private	Irrigated	0.3607000(Hectare)	0.3607000
101	87	Private	Irrigated	0.0851000(Hectare)	0.0851000
102	88	Private	Irrigated	0.1579000(Hectare)	0.1579000
103	882	Private	Irrigated	0.0699000(Hectare)	0.0699000
104	883	Private	Irrigated	0.7532000(Hectare)	0.7532000
105	884	Private	Irrigated	0.0334000(Hectare)	0.0334000
106	89	Private	Irrigated	0.3100000(Hectare)	0.3100000
107	90	Private	Irrigated	0.1500000(Hectare)	0.1500000
108	91	Private	Irrigated	0.4412000(Hectare)	0.4412000
109	938	Private	Irrigated	0.0844000(Hectare)	0.0844000
110	94	Private	Irrigated	0.0763000(Hectare)	0.0763000
111	941	Private	Irrigated	0.1916000(Hectare)	0.1916000
112	942	Private	Irrigated	0.4281000(Hectare)	0.4281000
113	943	Private	Irrigated	0.0881000(Hectare)	0.0881000
114	944	Private	Irrigated	0.1692000(Hectare)	0.1692000
115	945	Private	Irrigated	0.1062000(Hectare)	0.1062000
116	946	Government	service land	0.2295000(Hectare)	0.2295000
117	95	Private	Irrigated	1.3600000(Hectare)	1.3600000
118	96	Private	Irrigated	0.1200000(Hectare)	0.1200000
119	968	Private	Irrigated	0.2073000(Hectare)	0.2073000
120	97	Private	Irrigated	0.1100000(Hectare)	0.1100000
121	971	Private	Irrigated	0.0240000(Hectare)	0.0240000
122	972	Private	Irrigated	0.1800000(Hectare)	0.1800000
123	973	Private	Irrigated	0.1900000(Hectare)	0.1900000
124	974	Private	Irrigated	0.1672000(Hectare)	0.1672000
125	975	Private	Irrigated	0.0092000(Hectare)	0.0092000

126	976	Government	Nali	0.1000000(Hectare)	0.1000000
127	977	Government	Irrigated (Seva bumi)	0.0464000(Hectare)	0.0464000
128	978	Private	Irrigated	0.0322000(Hectare)	0.0322000
129	979	Private	Irrigated	0.0943000(Hectare)	0.0943000
130	98	Private	Irrigated	0.2195000(Hectare)	0.2195000
131	980	Private	Irrigated	0.4600000(Hectare)	0.4600000
132	99	Private	Irrigated	0.0985000(Hectare)	0.0985000
Village: Kodapar					
1	641	Government	Nala (under water)	0.0796000(Hectare)	0.0796000
2	642	Government	Road	0.0684000(Hectare)	0.0684000
3	643	Private	Irrigated	0.0914000(Hectare)	0.0914000
4	644	Government	Grass	0.0962000(Hectare)	0.0962000
5	655	Government	Road	0.1259000(Hectare)	0.1259000
6	729	Private	Irrigated	0.1125000(Hectare)	0.1125000
7	730	Private	Irrigated	1.0000000(Hectare)	1.0000000
8	731 / 1	Private	Irrigated	0.1000000(Hectare)	0.1000000
9	731 / 2	Private	Irrigated	0.1100000(Hectare)	0.1100000
10	732	Private	Irrigated	0.0594000(Hectare)	0.0594000
11	733	Private	Irrigated	0.1052000(Hectare)	0.1052000
12	737 / 1	Private	Irrigated	0.0244000(Hectare)	0.0244000
13	737 / 2	Private	Irrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
14	737 / 3	Private	Irrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
15	738	Private	Irrigated	0.2355000(Hectare)	0.2355000
16	741	Private	Irrigated	0.0958000(Hectare)	0.0958000
17	742	Private	Irrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
18	743	Private	Irrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
19	744	Private	Irrigated	0.1734000(Hectare)	0.1734000
20	747	Private	Irrigated	0.0600000(Hectare)	0.0600000
21	748 / 1	Private	Irrigated	0.0200000(Hectare)	0.0200000
22	748 / 2	Private	Irrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
23	748 / 3	Private	Irrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
24	749	Private	Irrigated	0.1000000(Hectare)	0.1000000
25	750	Private	Irrigated	0.0700000(Hectare)	0.0700000
26	751	Private	Irrigated	0.0900000(Hectare)	0.0900000
27	752	Private	Irrigated	0.1500000(Hectare)	0.1500000
28	753	Private	Irrigated	0.1609000(Hectare)	0.1609000
29	754	Private	Irrigated	0.0340000(Hectare)	0.0340000
30	755	Private	Irrigated	0.0669000(Hectare)	0.0669000
31	758	Private	Irrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
Village: Kotgaon					
1	729	Private	Irrigated	0.0960000(Hectare)	0.0960000

2	736	Private	Irrigated	0.0200000(Hectare)	0.0200000
3	742	Private	Irrigated	0.0590000(Hectare)	0.0590000
4	743	Private	Irrigated	0.4460000(Hectare)	0.4460000
5	744	Private	Irrigated	0.0700000(Hectare)	0.0700000
6	745	Private	Irrigated	0.1200000(Hectare)	0.1200000
7	746	Private	Irrigated	0.0440000(Hectare)	0.0440000
8	747 / 1	Private	Irrigated	0.6250000(Hectare)	0.6250000
9	747 / 2	Private	Irrigated	0.3900000(Hectare)	0.3900000
10	748	Private	Irrigated	0.1850000(Hectare)	0.1850000
11	758	Government	Canal (Unirrigated)	0.1030000(Hectare)	0.1030000
Village: Kuhkuha					
1	425	Private	Irrigated	0.0530000(Hectare)	0.0530000
2	426	Private	Irrigated	0.0544000(Hectare)	0.0544000
3	434	Private	Irrigated	0.0114000(Hectare)	0.0114000
4	435	Private	Irrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
5	436	Private	Irrigated	0.2200000(Hectare)	0.2200000
6	437	Private	Irrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
7	438	Private	Irrigated	0.0439000(Hectare)	0.0439000
8	439 / 1	Private	Irrigated	0.2055000(Hectare)	0.2055000
9	439 / 2	Private	Irrigated	0.3986000(Hectare)	0.3986000
10	440	Private	Irrigated	0.0173000(Hectare)	0.0173000
Village: Kurud					
1	1076 / 12	Private	Irrigated Double Crop	0.1850000(Hectare)	0.1850000
2	1078 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.1890000(Hectare)	0.1890000
3	1078 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.7068000(Hectare)	0.7068000
4	1078 / 3	Private	Irrigated Double Crop	0.1783000(Hectare)	0.1783000
5	1079	Private	Irrigated Double Crop	0.2054000(Hectare)	0.2054000
6	1080 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.3040000(Hectare)	0.3040000
7	1080 / 10	Private	Irrigated Double Crop	0.1089000(Hectare)	0.1089000
8	1080 / 11	Private	Irrigated Double Crop	0.1641000(Hectare)	0.1641000
9	1080 / 3 / 4 / 6	Private	Irrigated Double Crop	0.2092000(Hectare)	0.2092000
10	1080 / 7	Private	Irrigated Double Crop	0.7130000(Hectare)	0.7130000
11	438 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.1632000(Hectare)	0.1632000
12	438 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.1039000(Hectare)	0.1039000
13	438 / 9	Private	Irrigated Double Crop	0.3255000(Hectare)	0.3255000
14	438 / 3	Private	Irrigated Double Crop	0.4613000(Hectare)	0.4613000
15	438 / 8	Private	Irrigated Double Crop	0.3842000(Hectare)	0.3842000
16	446 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.2757000(Hectare)	0.2757000
17	446 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.0859000(Hectare)	0.0859000
18	446 / 3	Private	Irrigated Double Crop	0.2710000(Hectare)	0.2710000
19	447	Private	Irrigated Double Crop	0.3610000(Hectare)	0.3610000

20	448 / 3	Private	Irrigated Double Crop	0.0883000(Hectare)	0.0883000
21	449	Private	Irrigated Double Crop	0.0125000(Hectare)	0.0125000
22	450 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.3300000(Hectare)	0.3300000
23	450 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.1800000(Hectare)	0.1800000
24	452 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.0390000(Hectare)	0.0390000
25	452 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.1200000(Hectare)	0.1200000
26	452 / 4	Private	Irrigated Double Crop	0.0882000(Hectare)	0.0882000
27	455 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.0540000(Hectare)	0.0540000
28	455 / 11	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
29	455 / 13	Private	Irrigated Double Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000
30	455 / 14	Private	Irrigated Double Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000
31	455 / 15	Private	Irrigated Double Crop	0.0800000(Hectare)	0.0800000
32	455 / 16	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
33	455 / 17	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
34	455 / 3	Private	Irrigated Double Crop	0.0816000(Hectare)	0.0816000
35	455 / 4	Private	Irrigated Double Crop	0.2781000(Hectare)	0.2781000
36	455 / 6	Private	Irrigated Double Crop	0.0519000(Hectare)	0.0519000
37	455 / 7	Private	Irrigated Double Crop	0.2600000(Hectare)	0.2600000
38	456 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.4328000(Hectare)	0.4328000
39	456 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.0820000(Hectare)	0.0820000
40	456 / 3	Private	Irrigated Double Crop	0.4323000(Hectare)	0.4323000
41	456 / 5	Private	Irrigated Double Crop	0.3100000(Hectare)	0.3100000
42	456 / 6	Private	Irrigated Double Crop	0.0900000(Hectare)	0.0900000
43	456 / 7	Private	Irrigated Double Crop	0.0900000(Hectare)	0.0900000
44	456 / 8	Private	Irrigated Double Crop	0.0900000(Hectare)	0.0900000
45	456 / 9	Private	Irrigated Double Crop	0.0800000(Hectare)	0.0800000
46	497 / 1	Government	dirt road	0.0790000(Hectare)	0.0790000
Village: Mendaraka					
1	773 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.3100000(Hectare)	0.3100000
2	165	Private	Irrigated Double Crop	0.0662000(Hectare)	0.0662000
3	173	Government	Rasta	0.1408000(Hectare)	0.1408000
4	174	Private	Irrigated Double Crop	0.6284000(Hectare)	0.6284000
5	175	Private	Irrigated Double Crop	0.1018000(Hectare)	0.1018000
6	176 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.2900000(Hectare)	0.2900000
7	176 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.1051000(Hectare)	0.1051000
8	177	Private	Irrigated Double Crop	0.0226000(Hectare)	0.0226000
9	182 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.0890000(Hectare)	0.0890000
10	182 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.3380000(Hectare)	0.3380000
11	183	Private	Irrigated Double Crop	0.1057000(Hectare)	0.1057000
12	184	Private	Irrigated Double Crop	0.1100000(Hectare)	0.1100000
13	185	Private	Irrigated Double Crop	0.1200000(Hectare)	0.1200000

14	186	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
15	187 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.1390000(Hectare)	0.1390000
16	187 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.2165000(Hectare)	0.2165000
17	188	Private	Irrigated Double Crop	0.1000000(Hectare)	0.1000000
18	189 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
19	189 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.2700000(Hectare)	0.2700000
20	190	Private	Irrigated Double Crop	0.1000000(Hectare)	0.1000000
21	191	Private	Irrigated Double Crop	0.5000000(Hectare)	0.5000000
22	192 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.4600000(Hectare)	0.4600000
23	193	Private	Irrigated Double Crop	0.0304000(Hectare)	0.0304000
24	199	Private	Irrigated Double Crop	0.1354000(Hectare)	0.1354000
25	201	Private	Irrigated Double Crop	0.2275000(Hectare)	0.2275000
26	202	Private	Irrigated Double Crop	0.0373000(Hectare)	0.0373000
27	203	Private	Irrigated Double Crop	0.1340000(Hectare)	0.1340000
28	204	Private	Irrigated Double Crop	0.2000000(Hectare)	0.2000000
29	205 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.0683000(Hectare)	0.0683000
30	211	Private	Irrigated Double Crop	0.3500000(Hectare)	0.3500000
31	212	Private	Irrigated Double Crop	0.3400000(Hectare)	0.3400000
32	213	Private	Irrigated Double Crop	0.1369000(Hectare)	0.1369000
33	230 / 1	Government	Canel	0.0669000(Hectare)	0.0669000
34	249 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.3272000(Hectare)	0.3272000
35	249 / 3	Private	Irrigated Double Crop	0.2152000(Hectare)	0.2152000
36	249 / 4	Private	Irrigated Double Crop	0.2700000(Hectare)	0.2700000
37	475	Private	Irrigated Double Crop	0.2395000(Hectare)	0.2395000
38	476	Private	Irrigated Double Crop	0.2112000(Hectare)	0.2112000
39	477	Private	Irrigated Double Crop	0.1798000(Hectare)	0.1798000
40	478	Private	Irrigated Double Crop	0.2400000(Hectare)	0.2400000
41	479	Private	Irrigated Double Crop	0.0700000(Hectare)	0.0700000
42	480	Private	Irrigated Double Crop	0.0968000(Hectare)	0.0968000
43	482	Government	Nali	0.0430000(Hectare)	0.0430000
44	485	Private	Irrigated Double Crop	0.9333000(Hectare)	0.9333000
45	486	Private	Irrigated Double Crop	0.0222000(Hectare)	0.0222000
46	487	Private	Irrigated Double Crop	0.8300000(Hectare)	0.8300000
47	488	Private	Irrigated Double Crop	0.3009000(Hectare)	0.3009000
48	489	Private	Irrigated Double Crop	0.1913000(Hectare)	0.1913000
49	541	Private	Irrigated Double Crop	0.0843000(Hectare)	0.0843000
50	542 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.0199000(Hectare)	0.0199000
51	546	Private	Irrigated Double Crop	0.4500000(Hectare)	0.4500000
52	552	Private	Irrigated Double Crop	0.1223000(Hectare)	0.1223000
53	600	Government	Nahar	0.1208000(Hectare)	0.1208000
54	627	Government	Nali	0.0536000(Hectare)	0.0536000

55	631	Private	Irrigated Double Crop	0.3361000(Hectare)	0.3361000
56	632	Private	Irrigated Double Crop	0.1700000(Hectare)	0.1700000
57	633	Private	Irrigated Double Crop	0.1400000(Hectare)	0.1400000
58	634	Private	Irrigated Double Crop	0.0285000(Hectare)	0.0285000
59	640	Government	Rasta	0.0304000(Hectare)	0.0304000
60	646	Government	Grass	0.5248000(Hectare)	0.5248000
61	721	Government	Rasta	0.0241000(Hectare)	0.0241000
62	729	Private	Irrigated Double Crop	0.9500000(Hectare)	0.9500000
63	730	Government	Grass	0.0526000(Hectare)	0.0526000
64	752	Private	Irrigated Double Crop	0.1881000(Hectare)	0.1881000
65	754	Private	Irrigated Double Crop	0.0783000(Hectare)	0.0783000
66	755	Private	Irrigated Double Crop	0.2728000(Hectare)	0.2728000
67	756	Private	Irrigated Double Crop	0.3400000(Hectare)	0.3400000
68	757	Private	Irrigated Double Crop	0.0264000(Hectare)	0.0264000
69	760	Private	Irrigated Double Crop	0.0426000(Hectare)	0.0426000
70	761	Private	Irrigated Double Crop	0.0202000(Hectare)	0.0202000
71	762 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.1309000(Hectare)	0.1309000
72	762 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.1353000(Hectare)	0.1353000
73	763	Private	Irrigated Double Crop	0.0360000(Hectare)	0.0360000
74	764 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.2311000(Hectare)	0.2311000
75	764 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.1232000(Hectare)	0.1232000
76	765	Private	Irrigated Double Crop	0.0051000(Hectare)	0.0051000
77	771 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.3400000(Hectare)	0.3400000
78	771/1	Private	Irrigated Double Crop	0.1489000(Hectare)	0.1489000
79	772	Private	Irrigated Double Crop	0.0481000(Hectare)	0.0481000
80	773 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.0264000(Hectare)	0.0264000
81	774	Private	Irrigated Double Crop	0.3074000(Hectare)	0.3074000
Village: Nawagaon					
1	38	Private	Irrigated Double Crop	0.2097000(Hectare)	0.2097000
2	40	Government	Pond Par	0.4000000(Hectare)	0.4000000
3	41	Government	Pond	0.5300000(Hectare)	0.5300000
4	42 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.4700000(Hectare)	0.4700000
5	42/2	Private	Diverted	0.0619000(Hectare)	0.0619000
6	43	Government	Road	0.1693000(Hectare)	0.1693000
7	46	Private	Padat	0.0577000(Hectare)	0.0577000
8	47 / 1	Private	Irrigated Double Crop	0.3626000(Hectare)	0.3626000
9	47 / 2	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
10	47 / 3	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
11	48	Private	Irrigated Double Crop	0.2829000(Hectare)	0.2829000
Village: Paraswani					
1	1	Government	nala	0.1991000(Hectare)	0.1991000

2	108	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1274000(Hectare)	0.1274000
3	151	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0954000(Hectare)	0.0954000
4	152	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0328000(Hectare)	0.0328000
5	153 / 1	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1935000(Hectare)	0.1935000
6	153 / 2	Private	Irrigated Dauble Crop	0.6200000(Hectare)	0.6200000
7	155	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2760000(Hectare)	0.2760000
8	156	Private	Irrigated Dauble Crop	0.5624000(Hectare)	0.5624000
9	157	Private	Irrigated Dauble Crop	0.3561000(Hectare)	0.3561000
10	158	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2859000(Hectare)	0.2859000
11	160	Private	Irrigated Dauble Crop	0.5080000(Hectare)	0.5080000
12	162	Private	Irrigated Dauble Crop	0.9500000(Hectare)	0.9500000
13	41	Private	Irrigated Dauble Crop	0.7034000(Hectare)	0.7034000
14	43	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0205000(Hectare)	0.0205000
15	44	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0627000(Hectare)	0.0627000
16	46	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2497000(Hectare)	0.2497000
17	47 / 1	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1462000(Hectare)	0.1462000
18	47 / 2	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1310000(Hectare)	0.1310000
19	48 / 2	Private	Irrigated double crop	1.0200000(Hectare)	1.0200000
20	48 / 3	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0178000(Hectare)	0.0178000
21	63	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0519000(Hectare)	0.0519000
22	64	Private	Irrigated Dauble Crop	0.4000000(Hectare)	0.4000000
23	65	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0849000(Hectare)	0.0849000
24	66 / 1	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
25	66 / 2	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0490000(Hectare)	0.0490000
26	67	Government	Grass	0.0202000(Hectare)	0.0202000
27	68	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1400000(Hectare)	0.1400000
28	69	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1200000(Hectare)	0.1200000
29	70	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2371000(Hectare)	0.2371000
30	71	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2311000(Hectare)	0.2311000
31	735 , 162 / 735	Private	Irrigated Dauble Crop	0.2901000(Hectare)	0.2901000
32	91	Government	Grass	0.1766000(Hectare)	0.1766000
33	95	Government	Grass	0.0666000(Hectare)	0.0666000
34	98	Government	Grass	0.2382000(Hectare)	0.2382000
Village: Sidhaurikalan					
1	102	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0601000(Hectare)	0.0601000
2	103	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2000000(Hectare)	0.2000000
3	104	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1528000(Hectare)	0.1528000
4	105	Private	Dhanaha Irrigated Double	0.1114000(Hectare)	0.1114000

			Crop		
5	106	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.3492000(Hectare)	0.3492000
6	112	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.5374000(Hectare)	0.5374000
7	113	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1096000(Hectare)	0.1096000
8	116	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1000000(Hectare)	0.1000000
9	117 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2000000(Hectare)	0.2000000
10	117 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0154000(Hectare)	0.0154000
11	118	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2974000(Hectare)	0.2974000
12	119	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0054000(Hectare)	0.0054000
13	122	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2300000(Hectare)	0.2300000
14	123	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1817000(Hectare)	0.1817000
15	124	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1657000(Hectare)	0.1657000
16	125	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0720000(Hectare)	0.0720000
17	127	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0971000(Hectare)	0.0971000
18	128	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1300000(Hectare)	0.1300000
19	129	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1400000(Hectare)	0.1400000
20	13	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1234000(Hectare)	0.1234000
21	130	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2800000(Hectare)	0.2800000
22	131	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000
23	132 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0999000(Hectare)	0.0999000
24	133	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0199000(Hectare)	0.0199000
25	134	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1300000(Hectare)	0.1300000
26	135	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
27	136	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
28	137	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000

29	138	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000
30	139	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.4200000(Hectare)	0.4200000
31	14	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1359000(Hectare)	0.1359000
32	140	Government	Nala	0.0800000(Hectare)	0.0800000
33	146	Government	Grass	0.1574000(Hectare)	0.1574000
34	147	Government	Grass	0.0308000(Hectare)	0.0308000
35	15	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1420000(Hectare)	0.1420000
36	590	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.3445000(Hectare)	0.3445000
37	591	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.7357000(Hectare)	0.7357000
38	592	Government	Abadi	0.1024000(Hectare)	0.1024000
39	593	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2259000(Hectare)	0.2259000
40	7	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2200000(Hectare)	0.2200000
41	8	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2582000(Hectare)	0.2582000
42	9 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0919000(Hectare)	0.0919000
Village: Sidhaurikhurd					
1	259	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1452000(Hectare)	0.1452000
2	268	Government	Road	0.0309000(Hectare)	0.0309000
3	271	Government	Grass	0.0447000(Hectare)	0.0447000
4	272	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
5	273 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
6	273/2	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0123000(Hectare)	0.0123000
7	274	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0384000(Hectare)	0.0384000
8	275	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0136000(Hectare)	0.0136000
9	276	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
10	277	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0900000(Hectare)	0.0900000
11	278	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.3674000(Hectare)	0.3674000
12	279	Government	Grass	0.1415000(Hectare)	0.1415000
13	280	Government	Grass	0.1054000(Hectare)	0.1054000

14	281	Government	Grass	0.0500000(Hectare)	0.0500000
15	282	Government	Grass	0.2417000(Hectare)	0.2417000
16	283	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2200000(Hectare)	0.2200000
17	284	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.3800000(Hectare)	0.3800000
18	287	Government	Dhanha unirrigated Double Crop (Seva Bhoomi)	0.4900000(Hectare)	0.4900000
19	463 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0215000(Hectare)	0.0215000
20	468	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.4500000(Hectare)	0.4500000
21	469 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.4709000(Hectare)	0.4709000
22	472 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000
23	477 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.4594000(Hectare)	0.4594000
24	477 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1883000(Hectare)	0.1883000
25	478 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1234000(Hectare)	0.1234000
26	478 / 5	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.4000000(Hectare)	0.4000000
27	481	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0849000(Hectare)	0.0849000
28	482	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2840000(Hectare)	0.2840000
29	483	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0700000(Hectare)	0.0700000
30	484	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.2037000(Hectare)	0.2037000
31	485 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0253000(Hectare)	0.0253000
32	494	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1357000(Hectare)	0.1357000
33	495 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0762000(Hectare)	0.0762000
34	496	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0127000(Hectare)	0.0127000
35	497	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.9192000(Hectare)	0.9192000
36	499 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0100000(Hectare)	0.0100000
37	499 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0640000(Hectare)	0.0640000
38	553 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2076000(Hectare)	0.2076000
39	553 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble	0.0050000(Hectare)	0.0050000

			Crop		
40	554	Government	Nala	0.0250000(Hectare)	0.0250000
41	555	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0814000(Hectare)	0.0814000
42	556 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1600000(Hectare)	0.1600000
43	556 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0800000(Hectare)	0.0800000
44	557	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.4351000(Hectare)	0.4351000
45	561 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0263000(Hectare)	0.0263000
46	561 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.4129000(Hectare)	0.4129000
47	561 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.3500000(Hectare)	0.3500000
48	562	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0805000(Hectare)	0.0805000
49	563 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2200000(Hectare)	0.2200000
50	563 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.3508000(Hectare)	0.3508000
51	564	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1112000(Hectare)	0.1112000
52	572	Government	nala	0.1274000(Hectare)	0.1274000
53	574 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0264000(Hectare)	0.0264000
54	574 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0130000(Hectare)	0.0130000
Village: Sirri					
1	1191	Private	Dhanaha Irrigated Single Crop	0.0185000(Hectare)	0.0185000
2	1192	Private	Dhanaha UnIrrigated Single Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000
3	1193	Private	Dhanaha UnIrrigated Single Crop	0.1147000(Hectare)	0.1147000
4	1194	Private	Dhanaha UnIrrigated Single Crop	0.0626000(Hectare)	0.0626000
5	1195	Private	Dhanaha UnIrrigated Single Crop	0.3550000(Hectare)	0.3550000
6	1196	Private	Dhanaha UnIrrigated Single Crop	0.1829000(Hectare)	0.1829000
7	1197	Government	Dhanaha Irrigated Single Crop	0.9454000(Hectare)	0.9454000
8	1218	Private	Dhanaha IrrigatedSingle Crop	0.1127000(Hectare)	0.1127000
9	1317	Government	Grass	0.1304000(Hectare)	0.1304000
10	1324	Private	Dhanaha Irrigated Dauble	0.2579000(Hectare)	0.2579000

			Crop		
11	1325	Government	Grass	0.0500000(Hectare)	0.0500000
12	1326	Government	Grass	0.0160000(Hectare)	0.0160000
13	1327	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.3483000(Hectare)	0.3483000
14	1328	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1064000(Hectare)	0.1064000
15	1329	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1504000(Hectare)	0.1504000
16	1330 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
17	1330 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
18	1330 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
19	1330 / 4	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0335000(Hectare)	0.0335000
20	1330 / 5	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
21	1331	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0988000(Hectare)	0.0988000
22	1336	Private	Dhanaha Irrigated single Crop	0.8472000(Hectare)	0.8472000
23	1338	Government	Nala	0.0832000(Hectare)	0.0832000
24	1339 / 1	Private	Dhanaha Irrigated single Crop	0.0070000(Hectare)	0.0070000
25	1339 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Single Crop	0.6494000(Hectare)	0.6494000
26	1339/2	Private	Dhanaha Irrigated Single Crop	0.0273000(Hectare)	0.0273000
27	1354	Private	Dhanaha unirrigated Single Crop	0.0335000(Hectare)	0.0335000
28	1378	Government	Nala	0.1488000(Hectare)	0.1488000
29	1442	Government	Road	0.1100000(Hectare)	0.1100000
30	1500 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Single Crop	0.0131000(Hectare)	0.0131000
31	1540	Government	Under Water	0.0980000(Hectare)	0.0980000
32	1543	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.1900000(Hectare)	0.1900000
33	1545 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0093000(Hectare)	0.0093000
34	1545 / 10	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0147000(Hectare)	0.0147000
35	1545 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
36	1545 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
37	1545 / 4	Private	Dhanaha Irrigated Dauble	0.0200000(Hectare)	0.0200000

			Crop		
38	1545 / 5	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
39	1545 / 6	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
40	1545 / 7	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
41	1545 / 8	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
42	1545 / 9	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0186000(Hectare)	0.0186000
43	1545/11	Private	Dhanaha Irrigated Double Crop	0.0060000(Hectare)	0.0060000
44	1546 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Single Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
45	1546 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Crop	0.3188000(Hectare)	0.3188000
46	1547	Private	Dhanaha Irrigated Crop	0.1844000(Hectare)	0.1844000
47	1548	Government	Grass	0.2083000(Hectare)	0.2083000
48	1549	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0097000(Hectare)	0.0097000
49	1550	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0464000(Hectare)	0.0464000
50	1551	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0740000(Hectare)	0.0740000
51	1552	Private	Dhanaha Irrigated single Crop	0.0091000(Hectare)	0.0091000
52	1553	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0800000(Hectare)	0.0800000
53	1554	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.2137000(Hectare)	0.2137000
54	1555	Private	Dhanaha Irrigated Single Crop	0.1600000(Hectare)	0.1600000
55	1556	Private	Dhanaha Irrigated Single Crop	0.0134000(Hectare)	0.0134000
56	1563	Private	Dhanaha Single Crop	0.0311000(Hectare)	0.0311000
57	1564	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.7100000(Hectare)	0.7100000
58	1565	Government	Grazing	0.0292000(Hectare)	0.0292000
59	1566	Government	Grass	0.1523000(Hectare)	0.1523000
60	1598	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.3600000(Hectare)	0.3600000
61	1599	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	1.3000000(Hectare)	1.3000000
62	1600	Private	Dhanaha Irrigated Crop	0.2400000(Hectare)	0.2400000
63	1601	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0723000(Hectare)	0.0723000
64	1602	Private	Dhanaha Irrigated Crop	0.0446000(Hectare)	0.0446000

65	1607 / 1	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
66	1607 / 12	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0290000(Hectare)	0.0290000
67	1607 / 13	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0351000(Hectare)	0.0351000
68	1607 / 17	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
69	1607 / 18	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
70	1607 / 19	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
71	1607 / 2	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
72	1607 / 20	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
73	1607 / 3	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0337000(Hectare)	0.0337000
74	1607 / 4	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0325000(Hectare)	0.0325000
75	1607 / 8	Private	Dhanaha Irrigated Dauble Crop	0.0183000(Hectare)	0.0183000
76	1608	Private	Dhanaha Irrigated single Crop	0.4800000(Hectare)	0.4800000
77	1609	Private	Dhanaha Irrigated single Crop	0.1157000(Hectare)	0.1157000
78	1610	Private	Dhanaha Irrigated Crop	0.2100000(Hectare)	0.2100000
79	1612	Private	Dhanha unirrigated Single Crop	0.0100000(Hectare)	0.0100000
80	1767	Private	Dhanha unirrigated Single Crop	0.9800000(Hectare)	0.9800000
81	1768	Private	Dhanha unirrigated Single Crop	0.0348000(Hectare)	0.0348000
82	1769	Private	Dhanha unirrigated Single Crop	0.3111000(Hectare)	0.3111000
83	1770	Private	Dhanha unirrigated Single Crop	0.2540000(Hectare)	0.2540000
84	1771	Private	Dhanaha Irrigated single Crop	0.7200000(Hectare)	0.7200000
85	1773	Government	Nala	0.0636000(Hectare)	0.0636000
86	1846	Private	Dhanaha Irrigated single Crop	0.5582000(Hectare)	0.5582000
87	1847	Private	Dhanaha Irrigated single Crop	0.3300000(Hectare)	0.3300000
88	1849	Private	Dhanaha Irrigated single Crop	0.0360000(Hectare)	0.0360000
Village: Sivni Kalan					
1	373/2	Private	Irrigated Double Crop	0.1288000(Hectare)	0.1288000

2	10/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0430000(Hectare)	0.0430000
3	109	Private	Irrigated Double Crop	0.0943000(Hectare)	0.0943000
4	110	Private	Irrigated Double Crop	0.2500000(Hectare)	0.2500000
5	111	Private	Irrigated Double Crop	0.2093000(Hectare)	0.2093000
6	112	Private	Irrigated Double Crop	0.1226000(Hectare)	0.1226000
7	113/11	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
8	113/12	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
9	113/13	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
10	113/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0029000(Hectare)	0.0029000
11	113/4	Private	Irrigated Double Crop	0.0073000(Hectare)	0.0073000
12	113/5	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
13	113/7	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
14	113/8	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
15	113/9	Private	Irrigated Double Crop	0.0390000(Hectare)	0.0390000
16	114/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
17	115/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0170000(Hectare)	0.0170000
18	115/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
19	115/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
20	115/4	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
21	115/5	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
22	117	Private	Irrigated Double Crop	0.0546000(Hectare)	0.0546000
23	118	Private	Irrigated Double Crop	0.3747000(Hectare)	0.3747000
24	12	Government	Canal	0.1586000(Hectare)	0.1586000
25	125	Private	Irrigated Double Crop	0.1720000(Hectare)	0.1720000
26	126	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
27	127	Private	Irrigated Double Crop	0.3904000(Hectare)	0.3904000
28	128	Private	Irrigated Double Crop	0.0874000(Hectare)	0.0874000
29	13	Private	Irrigated Double Crop	0.2500000(Hectare)	0.2500000
30	135	Private	Irrigated Double Crop	0.0454000(Hectare)	0.0454000
31	136	Private	Irrigated Double Crop	0.0170000(Hectare)	0.0170000
32	138	Private	Irrigated Double Crop	0.3062000(Hectare)	0.3062000
33	139/1	Private	Irrigated Double Crop	0.1162000(Hectare)	0.1162000
34	139/2	Private	Irrigated Double Crop	0.2145000(Hectare)	0.2145000
35	140	Private	Irrigated Double Crop	0.0463000(Hectare)	0.0463000
36	141	Private	Irrigated Double Crop	0.1100000(Hectare)	0.1100000
37	142/1	Private	Irrigated Double Crop	0.1273000(Hectare)	0.1273000
38	142/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
39	142/3	Private	Irrigated Double Crop	0.4682000(Hectare)	0.4682000
40	142/4	Private	Irrigated Double Crop	0.1000000(Hectare)	0.1000000
41	142/5	Private	Irrigated Double Crop	0.2000000(Hectare)	0.2000000
42	157/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0733000(Hectare)	0.0733000

43	169	Private	Irrigated Double Crop	0.0326000(Hectare)	0.0326000
44	171	Private	Irrigated Double Crop	0.0175000(Hectare)	0.0175000
45	172/1	Private	Irrigated Double Crop	0.2500000(Hectare)	0.2500000
46	172/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
47	172/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
48	173/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0285000(Hectare)	0.0285000
49	173/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0256000(Hectare)	0.0256000
50	173/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
51	173/4	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
52	173/5	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
53	173/6	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
54	174	Private	Irrigated Double Crop	0.1100000(Hectare)	0.1100000
55	175	Private	Irrigated Double Crop	0.0499000(Hectare)	0.0499000
56	177/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0375000(Hectare)	0.0375000
57	177/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0412000(Hectare)	0.0412000
58	178/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0169000(Hectare)	0.0169000
59	178/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000
60	178/4	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
61	178/5	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
62	178/6	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
63	178/7	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
64	183	Private	Irrigated Double Crop	0.5600000(Hectare)	0.5600000
65	184	Private	Irrigated Double Crop	0.0503000(Hectare)	0.0503000
66	185/1	Private	Irrigated Double Crop	0.1300000(Hectare)	0.1300000
67	185/2	Private	Irrigated Double Crop	0.1910000(Hectare)	0.1910000
68	189	Government	Grass	0.1348000(Hectare)	0.1348000
69	19	Private	Irrigated Double Crop	0.0178000(Hectare)	0.0178000
70	190	Private	Irrigated Double Crop	0.2588000(Hectare)	0.2588000
71	191	Private	Irrigated Double Crop	0.1800000(Hectare)	0.1800000
72	192/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0900000(Hectare)	0.0900000
73	192/2	Private	Irrigated Double Crop	0.1000000(Hectare)	0.1000000
74	194/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0319000(Hectare)	0.0319000
75	194/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
76	194/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
77	194/4	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
78	194/5	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
79	194/6	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
80	194/7	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
81	20/1	Private	Irrigated Double Crop	0.1700000(Hectare)	0.1700000
82	20/2	Private	Irrigated Double Crop	0.1600000(Hectare)	0.1600000
83	203	Private	Irrigated Double Crop	0.1778000(Hectare)	0.1778000

84	204	Private	Irrigated Double Crop	0.1827000(Hectare)	0.1827000
85	205	Government	Canal	0.0449000(Hectare)	0.0449000
86	207	Government	Road	0.0122000(Hectare)	0.0122000
87	208/1	Government	Khalihan hetu Surakshit	0.0089000(Hectare)	0.0089000
88	208/2	Government	Aabadi	0.2100000(Hectare)	0.2100000
89	209	Government	Aabadi	0.0600000(Hectare)	0.0600000
90	21	Private	Irrigated Double Crop	0.1493000(Hectare)	0.1493000
91	210	Government	Aabadi	0.0177000(Hectare)	0.0177000
92	212	Government	Road	0.1393000(Hectare)	0.1393000
93	213	Private	Irrigated Double Crop	0.1600000(Hectare)	0.1600000
94	214	Government	Grass	0.1332000(Hectare)	0.1332000
95	23	Government	Grass	0.0400000(Hectare)	0.0400000
96	2383	Private	Irrigated Double Crop	0.2250000(Hectare)	0.2250000
97	2384	Private	Irrigated Double Crop	0.0928000(Hectare)	0.0928000
98	2394/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0158000(Hectare)	0.0158000
99	24	Private	Irrigated Double Crop	0.2300000(Hectare)	0.2300000
100	25	Private	Irrigated Double Crop	0.0651000(Hectare)	0.0651000
101	26	Private	Irrigated Double Crop	0.0915000(Hectare)	0.0915000
102	27	Private	Irrigated Double Crop	0.1400000(Hectare)	0.1400000
103	28	Private	Irrigated Double Crop	0.0267000(Hectare)	0.0267000
104	372/1	Government	Grass	0.1256000(Hectare)	0.1256000
105	372/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000
106	373/1	Private	Irrigated Double Crop	0.1328000(Hectare)	0.1328000
107	374	Private	Irrigated Double Crop	0.0900000(Hectare)	0.0900000
108	375/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
109	375/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
110	375/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
111	376	Private	Irrigated Double Crop	0.3115000(Hectare)	0.3115000
112	378/2	Private	Irrigated Double Crop	0.3200000(Hectare)	0.3200000
113	379	Private	Irrigated Double Crop	0.0074000(Hectare)	0.0074000
114	380/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
115	380/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
116	380/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
117	381	Private	Irrigated Double Crop	0.0330000(Hectare)	0.0330000
118	384	Government	Canal	0.1695000(Hectare)	0.1695000
119	385	Private	Irrigated Double Crop	0.0097000(Hectare)	0.0097000
120	388	Private	Irrigated Double Crop	0.0914000(Hectare)	0.0914000
121	389	Private	Irrigated Double Crop	0.1899000(Hectare)	0.1899000
122	390	Private	Irrigated Double Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000
123	391	Private	Irrigated Double Crop	0.2271000(Hectare)	0.2271000
124	392	Private	Irrigated Double Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000

125	393/1	Private	Irrigated Double Crop	0.1000000(Hectare)	0.1000000
126	393/2	Private	Irrigated Double Crop	0.3777000(Hectare)	0.3777000
127	393/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0642000(Hectare)	0.0642000
128	394/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
129	394/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
130	394/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
131	395	Private	Irrigated Double Crop	0.0624000(Hectare)	0.0624000
132	396/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0394000(Hectare)	0.0394000
133	396/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
134	396/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
135	397/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
136	397/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
137	398	Private	Irrigated Double Crop	0.0660000(Hectare)	0.0660000
138	652	Private	Irrigated Double Crop	0.1206000(Hectare)	0.1206000
139	653	Private	Irrigated Double Crop	0.0790000(Hectare)	0.0790000
140	654	Private	Irrigated Double Crop	0.0332000(Hectare)	0.0332000
141	657	Private	Irrigated Double Crop	0.1522000(Hectare)	0.1522000
142	661	Private	Irrigated Double Crop	0.0762000(Hectare)	0.0762000
143	662	Private	Irrigated Double Crop	0.5492000(Hectare)	0.5492000
144	663	Private	Irrigated Double Crop	0.1704000(Hectare)	0.1704000
145	664	Private	Irrigated Double Crop	0.0763000(Hectare)	0.0763000
146	713	Private	Irrigated Double Crop	0.0411000(Hectare)	0.0411000
147	72	Government	Under Water	0.0365000(Hectare)	0.0365000
148	721	Private	Irrigated Double Crop	0.0798000(Hectare)	0.0798000
149	722/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0287000(Hectare)	0.0287000
150	723	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
151	724	Private	Irrigated Double Crop	0.0304000(Hectare)	0.0304000
152	725/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
153	725/10	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
154	725/11	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
155	725/12	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
156	725/13	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
157	725/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0312000(Hectare)	0.0312000
158	725/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
159	725/4	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
160	725/5	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
161	725/6	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
162	725/7	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
163	725/8	Private	Irrigated Double Crop	0.0399000(Hectare)	0.0399000
164	725/9	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
165	729	Private	Irrigated Double Crop	0.1416000(Hectare)	0.1416000

166	730	Private	Irrigated Double Crop	0.0675000(Hectare)	0.0675000
167	731	Private	Irrigated Double Crop	0.2359000(Hectare)	0.2359000
168	732	Private	Irrigated Double Crop	0.1652000(Hectare)	0.1652000
169	75/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
170	751	Private	Irrigated Double Crop	0.0179000(Hectare)	0.0179000
171	754	Private	Irrigated Double Crop	0.1787000(Hectare)	0.1787000
172	755	Private	Irrigated Double Crop	0.0600000(Hectare)	0.0600000
173	756	Private	Irrigated Double Crop	0.8717000(Hectare)	0.8717000
174	757	Government	Grass	0.1826000(Hectare)	0.1826000
175	759/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
176	759/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0149000(Hectare)	0.0149000
177	76	Private	Irrigated Double Crop	0.1900000(Hectare)	0.1900000
178	760	Private	Irrigated Double Crop	0.0791000(Hectare)	0.0791000
179	761/10	Private	Irrigated Double Crop	0.0194000(Hectare)	0.0194000
180	761/11	Private	Irrigated Double Crop	0.0298000(Hectare)	0.0298000
181	761/12	Private	Irrigated Double Crop	0.1900000(Hectare)	0.1900000
182	761/13	Private	Irrigated Double Crop	0.1900000(Hectare)	0.1900000
183	761/14	Private	Irrigated Double Crop	0.0967000(Hectare)	0.0967000
184	761/15	Private	Irrigated Double Crop	0.1134000(Hectare)	0.1134000
185	761/16	Private	Irrigated Double Crop	0.1030000(Hectare)	0.1030000
186	761/17	Private	Irrigated Double Crop	0.0317000(Hectare)	0.0317000
187	761/19	Private	Irrigated Double Crop	0.0712000(Hectare)	0.0712000
188	761/20	Private	Irrigated Double Crop	0.1700000(Hectare)	0.1700000
189	761/9	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
190	77/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0676000(Hectare)	0.0676000
191	77/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
192	77/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
193	77/4	Private	Irrigated Double Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
194	77/5	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
195	82	Private	Irrigated Double Crop	0.2957000(Hectare)	0.2957000
196	83	Private	Irrigated Double Crop	0.2700000(Hectare)	0.2700000
197	84/1	Private	Irrigated Double Crop	0.2000000(Hectare)	0.2000000
198	84/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0559000(Hectare)	0.0559000
199	84/3	Private	Irrigated Double Crop	0.1200000(Hectare)	0.1200000
200	85	Private	Irrigated Double Crop	0.0132000(Hectare)	0.0132000
201	878	Government	Canal	0.0966000(Hectare)	0.0966000
202	879	Government	under water	0.0547000(Hectare)	0.0547000
203	880	Private	Irrigated Double Crop	0.0258000(Hectare)	0.0258000
204	881/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
205	881/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
206	881/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000

207	881/4	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
208	881/5	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
209	881/6	Private	Irrigated Double Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
210	881/7	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
211	882/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0294000(Hectare)	0.0294000
212	882/4	Private	Irrigated Double Crop	0.0360000(Hectare)	0.0360000
213	89	Private	Irrigated Double Crop	0.0122000(Hectare)	0.0122000
214	891/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
215	894	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
216	895	Private	Irrigated Double Crop	0.1500000(Hectare)	0.1500000
217	896	Government	Under Water	0.7290000(Hectare)	0.7290000
218	897/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
219	897/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0244000(Hectare)	0.0244000
220	906	Government	Grass	0.0400000(Hectare)	0.0400000
221	907	Private	Irrigated Double Crop	0.0721000(Hectare)	0.0721000
222	908/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
223	908/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
224	908/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0393000(Hectare)	0.0393000
225	908/4	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
226	908/5	Private	Irrigated Double Crop	0.0393000(Hectare)	0.0393000
227	908/6	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
228	908/7	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
229	909/1	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
230	909/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0325000(Hectare)	0.0325000
231	909/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
232	909/4	Private	Irrigated Double Crop	0.0300000(Hectare)	0.0300000
233	909/5	Private	Irrigated Double Crop	0.0330000(Hectare)	0.0330000
234	909/6	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
235	909/7	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
236	910	Private	Irrigated Double Crop	0.1100000(Hectare)	0.1100000
237	911	Private	Irrigated Double Crop	0.0056000(Hectare)	0.0056000
238	921	Government	under water	0.0273000(Hectare)	0.0273000
239	922	Private	Irrigated Double Crop	0.1044000(Hectare)	0.1044000
240	923	Private	Irrigated Double Crop	0.1111000(Hectare)	0.1111000
241	924	Government	Grass	0.1700000(Hectare)	0.1700000
242	925	Government	Under Water	0.0861000(Hectare)	0.0861000
243	926	Private	Irrigated Double Crop	0.0195000(Hectare)	0.0195000
244	932	Government	Road	0.1630000(Hectare)	0.1630000
245	94	Private	Irrigated Double Crop	0.2225000(Hectare)	0.2225000
246	95/1	Private	Irrigated Double Crop	0.1443000(Hectare)	0.1443000
247	95/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000

248	95/3	Private	Irrigated Double Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
249	96	Private	Irrigated Double Crop	0.0629000(Hectare)	0.0629000
Village: Umarda					
1	10	Private	Irrigated Dauble Crop	0.3746000(Hectare)	0.3746000
2	11	Private	Irrigated Dauble Crop	0.3000000(Hectare)	0.3000000
3	12	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1434000(Hectare)	0.1434000
4	13 /1	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0898000(Hectare)	0.0898000
5	13 /2	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0442000(Hectare)	0.0442000
6	13 /3	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1443000(Hectare)	0.1443000
7	13 /4	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
8	13 /5	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
9	13 /6	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
10	13 /7	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
11	13 /8	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
12	150	Private	Irrigated Double Crop	0.0251000(Hectare)	0.0251000
13	151	Private	Irrigated Double Crop	0.1100000(Hectare)	0.1100000
14	152	Private	Irrigated Double Crop	0.0700000(Hectare)	0.0700000
15	153	Private	Irrigated Double Crop	0.0227000(Hectare)	0.0227000
16	157	Private	Irrigated Double Crop	0.0431000(Hectare)	0.0431000
17	16	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
18	160	Private	Irrigated Double Crop	0.5617000(Hectare)	0.5617000
19	161	Private	Irrigated Double Crop	0.5400000(Hectare)	0.5400000
20	162	Private	Irrigated Double Crop	0.1700000(Hectare)	0.1700000
21	163 /1	Private	Irrigated Double Crop	0.0332000(Hectare)	0.0332000
22	163 /3	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
23	163 /4	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
24	163 /5	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
25	163 /6	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
26	163 /7	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
27	163 /8	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
28	163 /9	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
29	163/2	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
30	164 /1	Private	Irrigated Double Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
31	164 /2	Private	Irrigated Double Crop	0.1714000(Hectare)	0.1714000
32	165	Private	Irrigated Double Crop	0.1324000(Hectare)	0.1324000
33	191	Government	Nala	0.0536000(Hectare)	0.0536000
34	194	Private	Irrigated Double Crop	0.1024000(Hectare)	0.1024000
35	195	Private	Irrigated Double Crop	0.1227000(Hectare)	0.1227000
36	196	Private	Irrigated Double Crop	0.1714000(Hectare)	0.1714000
37	197	Private	Irrigated Double Crop	0.3391000(Hectare)	0.3391000
38	204	Government	Rasta	0.0976000(Hectare)	0.0976000

39	229	Private	Irrigated Double Crop	0.0673000(Hectare)	0.0673000
40	231	Private	Irrigated Double Crop	0.3861000(Hectare)	0.3861000
41	232 /1	Private	Irrigated Double Crop	0.0756000(Hectare)	0.0756000
42	232 /2	Private	Irrigated Double Crop	0.1829000(Hectare)	0.1829000
43	233	Private	Irrigated Double Crop	0.3770000(Hectare)	0.3770000
44	234	Private	Irrigated Double Crop	0.3000000(Hectare)	0.3000000
45	235 /1	Private	Irrigated Double Crop	0.2010000(Hectare)	0.2010000
46	235 /2	Private	Irrigated Double Crop	0.1750000(Hectare)	0.1750000
47	236	Private	Irrigated Double Crop	0.0070000(Hectare)	0.0070000
48	237	Private	Irrigated Double Crop	0.0553000(Hectare)	0.0553000
49	244 /1	Private	Irrigated Double Crop	0.4617000(Hectare)	0.4617000
50	244 /2	Private	Irrigated Double Crop	0.9100000(Hectare)	0.9100000
51	245	Private	Irrigated Double Crop	0.0691000(Hectare)	0.0691000
52	246	Private	Irrigated Double Crop	0.3600000(Hectare)	0.3600000
53	248	Private	Irrigated Double Crop	0.1936000(Hectare)	0.1936000
54	249	Private	Irrigated Double Crop	0.2106000(Hectare)	0.2106000
55	250	Private	Irrigated Double Crop	0.0500000(Hectare)	0.0500000
56	251	Private	Irrigated Double Crop	0.0237000(Hectare)	0.0237000
57	266	Private	Irrigated Double Crop	0.0800000(Hectare)	0.0800000
58	268	Private	Irrigated Double Crop	0.0350000(Hectare)	0.0350000
59	269	Private	Irrigated Double Crop	0.2094000(Hectare)	0.2094000
60	270	Private	Irrigated Double Crop	0.1720000(Hectare)	0.1720000
61	273	Government	canal	0.0468000(Hectare)	0.0468000
62	274	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
63	3	Government	Canel	0.0761000(Hectare)	0.0761000
64	4	Government	Grass	0.0400000(Hectare)	0.0400000
65	5	Private	Irrigated Double Crop	0.1200000(Hectare)	0.1200000
66	6	Private	Irrigated Dauble Crop	0.3137000(Hectare)	0.3137000
67	63	Private	Irrigated Double Crop	0.0050000(Hectare)	0.0050000
68	64	Private	Irrigated Double Crop	0.0200000(Hectare)	0.0200000
69	65	Private	Irrigated Double Crop	0.1298000(Hectare)	0.1298000
70	77	Private	Irrigated Dauble Crop	0.1324000(Hectare)	0.1324000
71	78	Private	Irrigated Double Crop	0.4104000(Hectare)	0.4104000
72	79	Private	Irrigated Double Crop	0.2659000(Hectare)	0.2659000
73	80 /1	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
74	80 /10	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
75	80 /11	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
76	80 /2	Private	Irrigated Dauble Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
77	80 /3	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
78	80 /4	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
79	80 /5	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000

80	80 /6	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
81	80 /7	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
82	80 /8	Private	Irrigated Double Crop	0.0325000(Hectare)	0.0325000
83	80 /9	Private	Irrigated Double Crop	0.0400000(Hectare)	0.0400000
84	81 /1	Private	Irrigated Double Crop	0.6400000(Hectare)	0.6400000
85	9	Government	Canel	0.3600000(Hectare)	0.3600000
Taluk: Magarlod					
Village: Kwaradiah					
1	160	Government	Bade Jhaad Ka Jungle	0.3452000(Hectare)	0.3452000
2	161	Government	Bade Jhaad Ka Jungle	3.3309000(Hectare)	3.3309000
3	29	Private	UnIrrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
4	30	Private	UnIrrigated	0.3457000(Hectare)	0.3457000
5	40	Private	UnIrrigated	0.1096000(Hectare)	0.1096000
6	41	Private	UnIrrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
7	43	Private	UnIrrigated	0.1000000(Hectare)	0.1000000
8	44	Private	UnIrrigated	0.1969000(Hectare)	0.1969000
9	45	Private	UnIrrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
10	46	Private	UnIrrigated	0.0688000(Hectare)	0.0688000
11	47	Government	Bade Jhaad Ka Jungle	0.0286000(Hectare)	0.0286000
12	49	Private	UnIrrigated	0.2100000(Hectare)	0.2100000
13	50	Private	UnIrrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
14	51	Private	UnIrrigated	0.1500000(Hectare)	0.1500000
15	52	Private	UnIrrigated	0.0822000(Hectare)	0.0822000
16	53	Government	underwater	0.1316000(Hectare)	0.1316000
17	56	Government	Grass	0.0940000(Hectare)	0.0940000
18	57	Private	UnIrrigated	0.1691000(Hectare)	0.1691000
19	58	Private	UnIrrigated	0.0087000(Hectare)	0.0087000
20	59	Government	Bade Jhaad Ka Jungle	0.0069000(Hectare)	0.0069000
21	76	Government	Rasta	0.0438000(Hectare)	0.0438000
Village: Palwari					
1	E 17	Private(Forest rights Recognition letter)	UnIrrigated	0.7065000(Hectare)	0.7065000
2	G 16	Private(Forest rights Recognition letter)	Irrigated	0.0900000(Hectare)	0.0900000
3	G 17	Private(Forest rights Recognition letter)	UnIrrigated	0.0113000(Hectare)	0.0113000
4	H 15	Private(Forest rights Recognition letter)	UnIrrigated	0.1747000(Hectare)	0.1747000
5	I 16	Private(Forest rights Recognition letter)	UnIrrigated	0.1300000(Hectare)	0.1300000
6	J 16	Private	Private (Forest Rights Recognition Letter)	0.4100000(Hectare)	0.4100000
7	J 17	Private(Forest rights	Irrigated	0.0187000(Hectare)	0.0187000

		Recognition letter)			
8	L 16	Private(Forest rights Recognition letter)	UnIrrigated	0.1052000(Hectare)	0.1052000
9	Q 16	Private(Forest rights Recognition letter)	UnIrrigated	0.1443000(Hectare)	0.1443000
10	U 16	Private(Forest rights Recognition letter)	Irrigated	0.3149000(Hectare)	0.3149000
11	V 16	Private(Forest rights Recognition letter)	UnIrrigated	0.0729000(Hectare)	0.0729000
12	Z 14	Private(Forest rights Recognition letter)	Irrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
13	Z 16	Private(Forest rights Recognition letter)	UnIrrigated	0.4400000(Hectare)	0.4400000
Village: Rajpur					
1	1164	Government	Bade Jhaad Ka Jungle	4.5376000(Hectare)	4.5376000
2	1165	Private	Unirrigated Padat	0.1492000(Hectare)	0.1492000
3	1166	Government	grass	0.4082000(Hectare)	0.4082000
4	1167 / 1	Private	Unirrigated Padat	0.0400000(Hectare)	0.0400000
5	1167 / 2	Private	Unirrigated Padat	0.0300000(Hectare)	0.0300000
6	1167 / 3	Private	Unirrigated Padat	0.0400000(Hectare)	0.0400000
7	1167 / 4	Private	Unirrigated Padat	0.0400000(Hectare)	0.0400000
8	1167 / 5	Private	Unirrigated Padat	0.0300000(Hectare)	0.0300000
9	1168 / 1	Private	Unirrigated Padat	0.0700000(Hectare)	0.0700000
10	1168 / 2	Private	Unirrigated Padat	0.0400000(Hectare)	0.0400000
11	1168 / 3	Private	Unirrigated Padat	0.0500000(Hectare)	0.0500000
12	1168 / 4	Private	Unirrigated Padat	0.0400000(Hectare)	0.0400000
13	1168 / 5	Private	Unirrigated Padat	0.0200000(Hectare)	0.0200000
14	1168 / 6	Private	Unirrigated Padat	0.0500000(Hectare)	0.0500000
15	971	Private	UnIrrigated Dhanaha	0.0065000(Hectare)	0.0065000
16	972	Private	UnIrrigated Dhanaha	0.3010000(Hectare)	0.3010000
17	973	Private	UnIrrigated Dhanaha	0.0681000(Hectare)	0.0681000
18	974	Private	Unirrigated Dhanha	0.0040000(Hectare)	0.0040000
Village: Sargi					
1	1332 / 1	Private	UnIrrigated	0.3308000(Hectare)	0.3308000
2	1333	Private	UnIrrigated	0.0240000(Hectare)	0.0240000
3	1334 / 1	Private	UnIrrigated	0.1509000(Hectare)	0.1509000
4	1336	Government	RastaRoad	0.0760000(Hectare)	0.0760000
5	1342	Private	UnIrrigated	0.0269000(Hectare)	0.0269000
6	1343	Private	UnIrrigated	0.2075000(Hectare)	0.2075000
7	1344	Private	UnIrrigated	0.0714000(Hectare)	0.0714000
8	1345	Private	UnIrrigated	0.1159000(Hectare)	0.1159000
9	1346	Private	UnIrrigated	0.2800000(Hectare)	0.2800000
10	1347	Private	UnIrrigated	0.0343000(Hectare)	0.0343000

11	1351	Government	RastaRoad	0.1226000(Hectare)	0.1226000
12	1357	Government	Rasta	0.0643000(Hectare)	0.0643000
13	1358	Private	UnIrrigated	0.1361000(Hectare)	0.1361000
14	1359 / 2	Private	UnIrrigated	0.1600000(Hectare)	0.1600000
15	1360 / 1	Private	UnIrrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
16	1360 / 4	Private	UnIrrigated	0.1100000(Hectare)	0.1100000
17	1360 / 5	Private	UnIrrigated	0.1900000(Hectare)	0.1900000
18	1360 / 6	Private	UnIrrigated	0.0150000(Hectare)	0.0150000
19	1361	Private	UnIrrigated	0.1156000(Hectare)	0.1156000
20	1362	Private	UnIrrigated	0.0669000(Hectare)	0.0669000
21	1363	Private	UnIrrigated	0.1900000(Hectare)	0.1900000
22	1364	Private	UnIrrigated	0.0900000(Hectare)	0.0900000
23	1365	Private	UnIrrigated	0.0133000(Hectare)	0.0133000
24	1370	Private	UnIrrigated	0.0428000(Hectare)	0.0428000
25	1371 / 1	Private	UnIrrigated	0.0671000(Hectare)	0.0671000
26	1371 / 2	Private	UnIrrigated	0.1000000(Hectare)	0.1000000
27	1376	Private	UnIrrigated	0.0667000(Hectare)	0.0667000
28	1377	Private	UnIrrigated	0.1200000(Hectare)	0.1200000
29	1378	Private	UnIrrigated	0.3285000(Hectare)	0.3285000
30	1379	Private	UnIrrigated	0.1600000(Hectare)	0.1600000
31	1380	Private	UnIrrigated	0.0099000(Hectare)	0.0099000
32	1382	Private	UnIrrigated	0.0253000(Hectare)	0.0253000
33	1383	Private	UnIrrigated	0.3842000(Hectare)	0.3842000
34	1389	Private	UnIrrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
35	1390	Government	RastaRoad	0.0098000(Hectare)	0.0098000
36	1391	Private	UnIrrigated	0.0673000(Hectare)	0.0673000
37	1392	Private	UnIrrigated	0.1200000(Hectare)	0.1200000
38	1393 / 1	Private	UnIrrigated	0.2151000(Hectare)	0.2151000
39	1393 / 2	Private	Irrigated	0.3800000(Hectare)	0.3800000
40	1393 / 3	Private	UnIrrigated	0.1000000(Hectare)	0.1000000
41	1393 / 4	Private	Irrigated	0.0600000(Hectare)	0.0600000
42	1415	Private	UnIrrigated	0.1212000(Hectare)	0.1212000
43	1416 / 1	Private	UnIrrigated	0.0600000(Hectare)	0.0600000
44	1416 / 2	Private	UnIrrigated	0.0687000(Hectare)	0.0687000
45	1416 / 3	Private	UnIrrigated	0.0600000(Hectare)	0.0600000
46	1417	Private	UnIrrigated	0.1600000(Hectare)	0.1600000
47	1419	Private	UnIrrigated	0.0070000(Hectare)	0.0070000
48	1420 / 1	Private	UnIrrigated	0.1800000(Hectare)	0.1800000
49	1420 / 2	Private	UnIrrigated	0.1009000(Hectare)	0.1009000
50	1421	Private	UnIrrigated	0.0592000(Hectare)	0.0592000
51	1422	Private	UnIrrigated	0.0041000(Hectare)	0.0041000

52	1423	Private	UnIrrigated	0.1045000(Hectare)	0.1045000
53	1424	Private	UnIrrigated	0.2000000(Hectare)	0.2000000
54	1425 / 1	Private	UnIrrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
55	1425 / 2	Private	UnIrrigated	0.0300000(Hectare)	0.0300000
56	1425 / 3	Private	UnIrrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
57	1455 / 2	Private	UnIrrigated	0.1422000(Hectare)	0.1422000
58	1455 / 3	Private	UnIrrigated	0.0660000(Hectare)	0.0660000
59	1455 / 4	Private	UnIrrigated	0.4144000(Hectare)	0.4144000
60	1456	Private	UnIrrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
61	1457	Private	UnIrrigated	0.0297000(Hectare)	0.0297000
62	1458	Private	UnIrrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
63	1468	Private	UnIrrigated	0.0104000(Hectare)	0.0104000
64	1469	Private	UnIrrigated	0.2040000(Hectare)	0.2040000
65	1470	Private	UnIrrigated	0.0438000(Hectare)	0.0438000
66	1483	Private	UnIrrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
67	1484	Private	UnIrrigated	0.2504000(Hectare)	0.2504000
68	1485	Private	UnIrrigated	0.3263000(Hectare)	0.3263000
69	1486	Private	UnIrrigated	0.1433000(Hectare)	0.1433000
70	1487	Private	UnIrrigated	0.0606000(Hectare)	0.0606000
71	1488 / 1	Private	UnIrrigated	0.0709000(Hectare)	0.0709000
72	1488 / 2	Private	UnIrrigated	0.1400000(Hectare)	0.1400000
73	1489	Private	UnIrrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
74	1490	Private	UnIrrigated	0.3523000(Hectare)	0.3523000
75	1501	Private	UnIrrigated	0.0073000(Hectare)	0.0073000
76	1502	Private	UnIrrigated	0.1333000(Hectare)	0.1333000
77	1503	Private	UnIrrigated	0.1400000(Hectare)	0.1400000
78	1504	Private	UnIrrigated	0.1131000(Hectare)	0.1131000
79	1505	Private	UnIrrigated	0.2178000(Hectare)	0.2178000
80	1559	Private	UnIrrigated	0.2175000(Hectare)	0.2175000
81	1560 / 1	Private	UnIrrigated	0.0300000(Hectare)	0.0300000
82	1560 / 2	Private	UnIrrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
83	1560 / 3	Private	UnIrrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
84	1560 / 4	Private	UnIrrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
85	1560 / 5	Private	UnIrrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
86	1560 / 6	Private	UnIrrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
87	1560 / 7	Private	UnIrrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
88	1560 / 8	Private	UnIrrigated	0.0255000(Hectare)	0.0255000
89	1561	Government	Grass	0.1600000(Hectare)	0.1600000
90	1562	Government	Bade Jhad ke Jungle	1.3744000(Hectare)	1.3744000
91	1563	Government	Bade Jhaad Ka Jungle	0.5417000(Hectare)	0.5417000
92	1577	Government	Bade Jhaad Ka Jungle	1.5256000(Hectare)	1.5256000

93	1579	Government	Bade Jhaad Ka Jungle	0.0007000(Hectare)	0.0007000
94	1586	Government	Bade jhad ke jangale	0.0080000(Hectare)	0.0080000
95	1587	Government	Bade Jhaad Ka Jungle	1.9197000(Hectare)	1.9197000
96	323	Private	Irrigated	0.6700000(Hectare)	0.6700000
97	327	Private	Padat	0.0050000(Hectare)	0.0050000
98	329	Private	UnIrrigated	0.0597000(Hectare)	0.0597000
99	330 / 2	Private	Irrigated	0.0700000(Hectare)	0.0700000
100	331	Private	UnIrrigated	0.0604000(Hectare)	0.0604000
101	332 / 1	Private	Irrigated	0.0600000(Hectare)	0.0600000
102	332 / 2	Private	Irrigated	0.0300000(Hectare)	0.0300000
103	333	Private	UnIrrigated	0.2200000(Hectare)	0.2200000
104	334	Private	UnIrrigated	0.2100000(Hectare)	0.2100000
105	335	Private	UnIrrigated	0.1600000(Hectare)	0.1600000
106	336	Private	UnIrrigated	0.0302000(Hectare)	0.0302000
107	338	Private	UnIrrigated	0.0133000(Hectare)	0.0133000
108	339 / 1	Private	UnIrrigated	0.0410000(Hectare)	0.0410000
109	339 / 2	Private	UnIrrigated	0.0450000(Hectare)	0.0450000
110	339 / 3	Private	UnIrrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
111	339 / 4	Private	UnIrrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
112	340	Private	UnIrrigated	0.2360000(Hectare)	0.2360000
113	341 / 1	Private	UnIrrigated	0.0300000(Hectare)	0.0300000
114	341 / 2	Private	UnIrrigated	0.0300000(Hectare)	0.0300000
115	342 / 1	Private	padat	0.1200000(Hectare)	0.1200000
116	342 / 2	Private	Padat	0.1600000(Hectare)	0.1600000
117	343	Government	Grass	0.0656000(Hectare)	0.0656000
118	345	Private	Irrigated	0.0435000(Hectare)	0.0435000
119	348	Government	Grass	0.0902000(Hectare)	0.0902000
120	349	Private	UnIrrigated	0.0687000(Hectare)	0.0687000
121	351	Private	padat	0.0197000(Hectare)	0.0197000
122	352	Private	padat	0.0300000(Hectare)	0.0300000
123	353	Private	padat	0.0300000(Hectare)	0.0300000
124	354	Private	padat	0.0050000(Hectare)	0.0050000
125	355	Government	underwater Nala	0.7156000(Hectare)	0.7156000
126	423	Private	Irrigated	0.6395000(Hectare)	0.6395000
127	424	Private	UnIrrigated	0.1743000(Hectare)	0.1743000
128	426	Private	UnIrrigated	0.1036000(Hectare)	0.1036000
129	431 / 3	Private	UnIrrigated	0.1536000(Hectare)	0.1536000
130	432	Private	UnIrrigated	0.1000000(Hectare)	0.1000000
131	434 / 1	Private	UnIrrigated	0.2700000(Hectare)	0.2700000
132	434 / 2	Private	UnIrrigated	0.3020000(Hectare)	0.3020000
133	435	Private	Irrigated	0.1216000(Hectare)	0.1216000

134	436 / 2	Private	Irrigated	0.1350000(Hectare)	0.1350000
135	436/1	Private	Irrigated	0.0391000(Hectare)	0.0391000
136	437 / 1	Private	UnIrrigated	0.2800000(Hectare)	0.2800000
137	437 / 2	Private	UnIrrigated	0.1200000(Hectare)	0.1200000
138	437 / 3	Private	UnIrrigated	0.0606000(Hectare)	0.0606000
139	438	Private	UnIrrigated	0.1500000(Hectare)	0.1500000
140	439	Private	UnIrrigated	0.0513000(Hectare)	0.0513000
141	443	Private	UnIrrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
142	445	Private	UnIrrigated	0.0797000(Hectare)	0.0797000
143	446 / 1	Private	UnIrrigated	0.0640000(Hectare)	0.0640000
144	446 / 2	Private	UnIrrigated	0.0770000(Hectare)	0.0770000
145	447	Private	UnIrrigated	0.1700000(Hectare)	0.1700000
146	448 / 2	Private	Irrigated	0.0359000(Hectare)	0.0359000
147	449	Private	UnIrrigated	0.0264000(Hectare)	0.0264000
148	738	Private	UnIrrigated	0.2669000(Hectare)	0.2669000
149	739	Government	Rasta	0.3469000(Hectare)	0.3469000
150	740	Private	UnIrrigated	0.5425000(Hectare)	0.5425000
151	741	Private	UnIrrigated	0.1485000(Hectare)	0.1485000
152	742	Private	UnIrrigated	0.0123000(Hectare)	0.0123000
153	745	Private	UnIrrigated	0.0356000(Hectare)	0.0356000
Total				235.5915	235.5915

[F. No. PD/DMT/Rai-Vish/LA/3A2]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.